



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 28, 1968 (पौष 7, 1890)

No. 52]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 28, 1968 (PAUSA 7, 1890)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खंड 4

PART I—SECTION 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the
Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1968

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 3241, दिनांक 11 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति महोदय
सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

रक्षा विज्ञान सेवा

डा० हरि सिंह, अस्थायी बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-1
(तदर्थधारपर), जीवाजी अनुसंधान प्रयोगशाला, खंड (शाखा)
रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (सामग्री), खालियर, को इसी संस्थापन
में अस्थायी बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-1 के पद पर दो
वर्षों की परखावधि पर 14 अगस्त 1968 (पूर्वाह्न) से नियुक्त
किया जाता है।

रक्षा विज्ञान सेवा

सं० 3242, दिनांक 9 दिसम्बर 1968—त्यागपत्र स्वीकृत
हो जाने के फलस्वरूप श्री राधेश्याम सतीजा, अस्थायी कनिष्ठ
वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक मूल्यांकन निदेशालय, अनुसंधान
तथा विकास संगठन नई दिल्ली—30 अगस्त 1968 (पूर्वाह्न) से
पद के कार्यभार से विमुक्त हुये।

त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप, श्री एस० श्रीधर,
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिकीय विकास संस्थापन, बंगलौर

M384GI/68

(1191)

ने 31 अगस्त 1968 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार छोड़
दिया।

सं० 3243, दिनांक 7 दिसम्बर 1968—शुद्धि-पत्र—भारत
के राजपत्र दिनांक 17 जून 1968 में रक्षा अनुसंधान तथा विकास
संगठन—रक्षा विज्ञान सेवा, शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित रक्षा
मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 1672 दिनांक 5 जनवरी 1967 में
'श्री हरफूल सिंह यादव' के नाम के सम्मुख 'नाभिकीय औषध तथा
सम्बद्ध विज्ञान संस्थान दिल्ली' के स्थान पर 'रक्षा खाद्य अनुसंधान
प्रयोगशाला, मैसूर' पढ़िये।

श्रीमती जानकी कठपालिया, अवर सचिव

रक्षा उत्पादन विभाग

सं० 3244, दिनांक 7 दिसम्बर 1968—अधिसूचना सं०
1594 तिथि 15 मई 1967, 10 जून 1967 के राजपत्र में
प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना के संदर्भ में, राष्ट्रपति
महोदय श्री आर० एल० श्रीवास्तव, निरीक्षणालय सामान्य भंडार
(पश्चिमी भारत), बम्बई की जिनका कार्य-काल अस्थायी असैनिक
सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद पर 26 अक्टूबर 1967 को

समाप्त होने पर दिनांक 27 अक्तूबर 1967 से इसी पद पर 31 दिसम्बर 1968 तक या उस समय तक तब तक कि यह पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरा जा सके, जो भी पहले हो, नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं।

एन० बी० स्वामीनाथन, अवर सचिव

सं० 3245, दिनांक 7 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री एल० लोबो, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (स्थायी पेनरमैन), अस्त्र-शस्त्र निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली को स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी II के पद पर— 30 नवम्बर 1968 (पूर्वाह्न)।

श्रीमती जे० कठपालिया, अवर सचिव

जन-सम्पर्क निदेशालय

क्रमांक 3250, दिनांक 10 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति महोदय अधोदक्षित नियुक्ति करते हैं :—

श्री जागीर चन्द शर्मा नवम्बर 4, 1968 से 12 मास की अवधि तक अथवा केन्द्रीय लोक सेवा आयोग से नामांकित अधिकारी के आने तक, दोनों हैं। जो पहले हो, स्थानापन्न रूप से अस्थायी सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी पद पर कार्य करेंगे।

एन० बी० स्वामीनाथन, अनु-सचिव

सं० 3263, तारीख 7 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

विशेष सूची

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

बाबू बनकर (जे० सी० 50871) 21 सितम्बर, 1968।

एफ० एम० वीरजी, अवर सचिव

सं० 3264, तारीख 9 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

विशेष सूची

सैनिक सेवा कोर (मोटर परिवहन)

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

डीका राम शर्मा (जे० सी० 50705,) 30 जनवरी 1968।

सी० बी० नारायण, अवर सचिव

सं० 3265, तारीख 4 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

कालेज आफ मिलिटरी इंजीनियरिंग

श्री पाण्डुरंग वामन पवार, 12 नवम्बर 1968 (पूर्वाह्न) से अगला आदेश मिलने तक, अस्थायी प्रोफेसर ऐप्लाइड मिकेनिक्स रखे गये। वह दो वर्ष की परखावधि पर रहेंगे।

न० बी० स्वामीनाथन, अवर सचिव

सं० 3266, तारीख 11 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित नियुक्ति की :—

सैनिक इंजीनियर सेवाएं

श्री एस० एस० सचदेव, स्थाई सुपरिटेण्डेंट बी/आर ग्रेड I तथा कार्यवाहक ई० ई० को अपने कार्यों के अतिरिक्त एस० ई० सी० डब्लू० ई० फिरोजपुर के पूर्ण कार्यों को करने के लिये 17 जून 1968 से 18 सितम्बर 1968 तक नियुक्त किया गया।

श्री आर० सी० धीगरा, स्थाई पी० ए० तथा अस्थाई सुपरिटेण्डेंट क्लैरीकल को सी० डब्लू० ई० चण्डीगढ़ के कार्यालय में ए० ओ० ग्रेड II के कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने के लिये दिनांक 11 मई 1968 से 18 जून 1968 तक नियुक्त किया गया और उन्होंने सुपरिटेण्डेंट क्लैरिकल का चार्ज उपरोक्त समय के लिये छोड़ा।

श्री एच० जी० नायक स्थाई एस० ए० ग्रेड II तथा अस्थाई ए० एस० डब्लू० को अपने कार्यों के अतिरिक्त सी० डब्लू० ई० बम्बई के कार्यालय में एस० डब्लू० के पूर्ण कार्यों को करने के लिये 17 अगस्त 1968 से 28 अक्तूबर 1968 तक नियुक्त किया गया।

सं० 3267, तारीख 13 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति ने अग्रिम आदेश मिलने तक निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवाहक ए० ई० नियुक्त करते हैं :—

सैनिक इंजीनियर सेवाएं

1. एम० ई० एस० 8463312—श्री टी० आर० मगू स्थाई ए० ई० ई० ई०/एम० और अस्थाई ई० ई०—9 सितम्बर 1968 (पूर्वाह्न)।

2. एम० ई० एस० 9116—श्री एस० के० बोस स्थाई सुपरिटेण्डेंट ई० एम० ग्रेड I और कार्यवाहक ई० ई०—2 सितम्बर 1968 (पूर्वाह्न)।

3. एम० ई० एस० 300060—श्री टी० सी० यदानी—स्थाई ए० ई० ई० ई०/एम० और अस्थाई ई० ई०—5 सितम्बर 1968 (पूर्वाह्न)।

4. एम० ई० एस० 8458150—श्री जे० एम० डोरे स्थाई ए० ई० ई० बी०/आर० और कार्यवाहक ई० ई०—4 अक्तूबर 1968 (पूर्वाह्न)।

5. एम० ई० एस० 105001—श्री पी० सी० जैन स्थाई ए० ई० ई० बी०/आर० और कार्यवाहक ई० ई०—21 नवम्बर 1968 (पूर्वाह्न)।

अफसर 2 वर्ष की परख अवधि पर होंगे।

सं० 3268, तारीख 13 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सिविलियन एसिसटेंट सिक्योरिटी आफिसर को द्रव्यी श्रेणी से द्रव्य श्रेणी में 17 अक्टूबर 1966 से ऊंचा पद दिया गया :—

श्री के० पी० सोवानी
श्री नरन्ध सिंह
श्री कृष्ण मुरारी
श्री पी० ए० बरके
श्री ए० दोरावजी
श्री के० वी० रामाचन्द्रन
श्री के० पी० नायर

एन० बी० स्वामीनाथन, अवर सचिव

सं० 3273, दिनांक 7 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के मूल रैंक में (सलेक्शन द्वारा)

अजीत सिंह (आई० सी० 8967), ए० एस० सी०—10 जनवरी 1967।

(किन्तु वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जुलाई 1963 से दी जायेगी)।

राम प्रकाश कपूर (आई० सी० 2594), ए० ई० सी०—19 अप्रैल 1967।

(किन्तु वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 जनवरी 1965 से दी जायेगी)।

बी० वी० शिवाने (आई० सी० 3813), इंजीनियर्स—21 जुलाई 1967।

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के मूल रैंक में (टाइम-स्केल)

राजेन्द्र पाल (आई० सी० 1503), इन्फैन्ट्री—22 जनवरी 1968।

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के मूल रैंक में (टाइम-स्केल)

एम० के० अडवानी (आई० सी० 8891), इन्फैन्ट्री—29 अगस्त 1968।

दलीप सिंह (आई० सी० 2770), ए० ओ० सी०—16 अक्टूबर 1968।

ए० एच० सिंह (आई० सी० 3347), ए० ओ० सी०—16 अक्टूबर 1968।

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेंट से कैप्टेन

एस० बागची (आई० सी० 11572), इंजीनियर्स—7 जून 1965।

एस० एस० सांबू (आई० सी० 12049), इंजीनियर्स—12 जून 1966।

स्थायी कमीशन (विशेष सूची)

लेफ्टिनेंट से कैप्टेन

एल० जी० मुन्नामनियन (एस० एल० 460), 15 मई 1968।

भान सिंह (एस० एल० 483) विजय प्रकाश सिंह (एस० एल० 485) और के० एल० मुजुमदार (एस० एल० 487), 22 मई 1968।

धनपत राय (एस० एल० 454) और मोहिन्दर सिंह (एस० एल० 465), 15 मई 1968।

आई० सी० कौशिक (एस० एल० 474), डी० के० गुहा राय (एस० एल० 478), तेजा सिंह (एस० एल० 480), दीवार सिंह (एस० एल० 482), के० के० गोपालन (एस० एल० 494), यू० एस० गुरुंग (एस० एल० 496), राम मेहर (एस० एल० 497) और पी० एस० बिन्द्रा (एस० एल० 499), 22 मई 1968।

मेहर चन्द (एस० एल० 505) और एन० वसुदेवन (एस० एल० 507), 1 जुलाई 1968।

दलीप सिंह (एस० एल० 530), 17 जुलाई 1968।

2/लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

एस० एस० डिल्लन (आई० सी०—17108), इन्फैन्ट्री, 15 जून 1968।

आपासी कमीशन

2/लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

एम० एल० भाटिया (ई० सी०-51668), ई० एम० ई०, एच० एस० फत्ता (ई० सी०-51711), इन्फैन्ट्री, 27 सितम्बर 1965।

जितेन्द्र कुमार (ई० सी०-56483), ई० एम० ई०, 9 फरवरी 1966।

अल्पकालीन कमीशन

2/लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

एस० के० जैटले (एस० एस०-18614), डी० मेहरा (एस० एस०-18896), जी० पी० एस० ब्रेवाल (एस० एस०-18930), जी० एस० बेदी (एस० एस०-18936) और एस० एस० एहलावत (एस० एस०-19006), आमर्ष कोर। एस० एस० कसहाब (एस० एस० 18769), जे० एस० जाज (एस० एस०-18771), जे० पी० एस० राना (एस० एस०-18772), ए० के० शर्मा (एस० एस०-18773), विरेन्द्रा सिंह (एस० एस०-18775), बी० एस० ब्रेवाल (एस० एस०-18777), पी० सी० तिवारी (एस० एस०-18778), एम० ए० इफरेम (एस० एस०-18780), बी० एस० गुरुंग (एस० एस०-18782) और एस० सी० जोशी

(एस० एस० 18783), इन्फैन्ट्री, एस० एस० चौधरी (एस० एस० 18964), के० सी० मरवाह (एस० एस० 18965), एस० के० शर्मा (एस० एस० 18969), एन० एस० वर्मा (एस० एस० 18971), टी० के० दत्ता (एस० एस० 18976), टी० एस० बछ्शी (एस० एस० 18979), यू० जे० राय (एस० एस० 18981), जे० एल० मैकहेम (एस० एस० 18983), आर० के० दत्ता (एस० एस० 18985), और हरदेव सिंह (एस० एस० 18989), इन्फैन्ट्री, जी० एस० साधू (एस० एस० 18640), टी० सी० नायर (एस० एस० 18686), ओ० सी० राजपूत (एस० एस० 18689), जी० एस० कशप (एस० एस० 18702), विशम्बर सिंह (एस० एस० 18722), एस० एस० झोतकर (एस० एस० 18731), एस० एस० टूर (एस० एस० 18741) करन सिंह (एस० एस० 18758), जी० एस० एस० कौशिक (एस० एस० 18770) और एच० के० रेडी (एस० एस० 18784), ए० एस० सी०, पी० डी० जार्ज (एस० एस० 18909), आई० जे० गुप्त (एस० एस० 18910), आर० गुप्त (एस० एस० 18911), डी० सी० सूद (एस० एस० 18912), एन० बी० सकसैना (एस० एस० 18913), एम० जी० कदम (एस० एस० 18918), बी० सी० कटोच (एस० एस० 18923), रवीपाल (एस० एस० 18924), के० बी० एस सोडा (एस० एस० 18926), जी० एस० शेखावत (एस० एस० 18928), एस० बनर्जी (एस० एस० 18931), एस० बी० राजोपध्ये (एस० एस० 18932), टी० जे० एस० मोदी (एस० एस० 18933), डी० सी० काकरान (एस० एस० 18938), बी० पी० मैथानी (एस० एस० 18939), और के० सी० पन्त (एस० एस० 18940), इन्फैन्ट्री, एम० ई० फरनैन्डज (एस० एस० 18624), जुगल किशोर (एस० एस० 18676), ए० डैब्लू० भवकामकार (एस० एस० 18683), डी० आर० एफ० फिल्पी (एस० एस० 18713), के० रायजावा (एस० एस० 18726), बी० डी० भन्जारी (एस० एस० 18743), के० सी० शर्मा (एस० एस० 18798), एस० के० तलवार (एस० एस० 18803), जी० एन० दूबे (एस० एस० 18806), पी० आर० जोस (एस० एस० 18855), एस० के० चौहान (एस० एस० 18880) और बी० आर० रामालिगम (एस० एस० 18907), ए० ओ० सी०, ए० एन० सक्सेना (एस० एस० 18816), सखाराज सिंह (एस० एस० 18848), बी० जे० गवधी (एस० एस० 18902), बाल कृष्णन (एस० एस० 18960), अमरीक सिंह (एस० एस० 18974), पी० डी० कुरीयाल (एस० एस० 18977), एस० के० घानवत (एस० एस० 18982) और रघुबर दयाल (एस० एस० 19014), ए० एस० सी०, के० एस० सेठी (एस० एस० 18874), भूपेन्द्र सिंह (एस० एस० 18877), आर० के० देवाशर (एस० एस० 18881), एस० एस० रेडी (एस० एस० 18883), जे० एस० सोमर (एस० एस० 18885), एम० पी० शर्मा (एस० एस० 18886), एस० के० लामबा (एस० एस० 18887), वी० के० खोसला (एस० एस० 18888), जी० एस० राठी (एस० एस० 18901), आई० जे० बजाज (एस० एस० 18903), एच० एस० मनचन्दा (एस० एस० 18904), एस० पी० सिंह (एस० एस० 18906), के० पी० दिनाकरन (एस० एस० 18908) और बी० के० मल्होत्रा (एस० एस० 18914), इन्फैन्ट्री, बिजय

सिंह (एस० एस० 18709), बी० के० सरफरे (एस० एस० 18750), गजेन्द्रा सिंह (एस० एस० 18759), आई० एस० कोहली (एस० एस० 18844), आर० एल० शर्मा (एस० एस० 18846), एच० एस० डंग (एस० एस० 18849), राम अवतार सिंह (एस० एस० 18850), एस० एल० सोमायाजी (एस० एस० 18853), के० के० नागर (एस० एस० 18856), वरपाल सिंह (एस० एस० 18858), सुरेश दत्ता (एस० एस० 18863) जे० एस० सिधू (एस० एस० 18864) एस० एस० भल्ला (एस० एस० 18867) और एस० सी० नाले (एस० एस० 18871), इन्फैन्ट्री—24 अप्रैल 1968।

सं० 3274, तारीख 11 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क इमानुएल मुरमू (सं० 4232751 अब जे० सी० 50704) 14 अगस्त 1968।

इन्फैन्ट्री

डोगरा रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार संत राम (सं० 3932596 अब जे० सी० 50699) 9 जुलाई, 1968।

हवलदार इन्द्र सिंह (सं० 3940686 अब जे० सी० 50700) 13 सितम्बर, 1968*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अगस्त, 1968 से दी जायेगी)

हवलदार महाल चन्द सं० 3933015 अब जे० सी० 50698 11 अक्टूबर 1968।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क कस्तूरी लाल सं० 3939236 अब जे० सी० 50876 19 अक्टूबर 1968।

हवलदार क्लर्क हरनाम सिंह वर्मा सं० 3940020 अब जे० सी० 50877—15 नवम्बर 1968।

इन्फैन्ट्री

जाट रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बिरेंद्र सिंह सं० 3135912 अब जे० सी० 50724—8 सितम्बर, 1968*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना, ज्येष्ठता 23 जुलाई 1968 से दी जायेगी)।

हवलदार बनी सिंह सं० 3133498 अब जे० सी० 50718 —29 सितम्बर 1968।

हवलदार बनी सिंह सं० 3138514 अब जे० सी०-50701—
14 अक्टूबर, 1968।

नायब सूबेदार कलक के रैंक में

हवलदार कलक मुरारी लाल सं० 2633560 अब जे० सी०
50753—15 अक्टूबर, 1968।

इन्फैन्ट्री

कुमाऊं रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी क्यू एमएच बजरंग सिंह सं० 4142775 अब जे० सी०-
50766—1 अप्रैल 1968।

हवलदार मान सिंह सं० 4140671 अब जे० सी०-50722
—23 सितम्बर, 1968।

हवलदार दीलत चन्द सं० 4139009 अब जे० सी०-50703
—25 अक्टूबर, 1968।

इन्फैन्ट्री

महारा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रामचन्द्र शेलके सं० 4533822 अब जे० सी०-
50710—12 मई, 1968।

हवलदार राजाराम भुंजारे सं० 4534040 अब जे० सी०-
50711—1 जुलाई, 1968।

हवलदार भिमराव कसबे सं० 4534549 अब जे० सी०
50712—10 अगस्त, 1968।

हवलदार लाभ सिंह सं० 9310308 अब जे० सी०-50713
—13 सितम्बर, 1968।

हवलदार फुमन सिंह सं० 9309523 अब जे० सी०-50714
—13 अक्टूबर, 1968।

हवलदार हुकम सिंह सं० 9309491 अब जे० सी०-50715
—16 अक्टूबर, 1968।

हवलदार दाबू राम सं० 9200036 अब जे० सी०-50716
—19 अक्टूबर 1968।

इन्फैन्ट्री

राजपूत रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शिव नारायण सं० 2945402 अब जे० सी०-
50706—24 सितम्बर, 1968।

हवलदार तेज सिंह सं० 2938385 अब जे० सी०-50707;
हवलदार भोजराज सिंह सं० 2942726 अब जे० सी०-50708
हवलदार जगध्व सिंह खटाना सं० 2937551 अब जे० सी०
50709—23 अक्टूबर, 1968।

नायब सूबेदार (कलक) के रैंक में

हवलदार कलक नरपत सिंह सं० 2914748 अब जे० सी०-
50717—21 सितम्बर, 1968*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर, 1968 से दी जायेगी)।

इन्फैन्ट्री

बी पंजाब रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार खजान सिंह सं० 2437152 अब जे० सी०-50755
—20 अगस्त, 1968।

हवलदार अमर सिंह सं० 2439407 अब जे० सी०-50874
—9 अक्टूबर, 1968।

इन्फैन्ट्री

सिख रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शमशेर सिंह सं० 3337349 अब जे० सी०-50760
—24 अगस्त, 1968।

हवलदार हरभजन सिंह सं० 3338829 अब जे० सी०-
50761—4 सितम्बर, 1968।

हवलदार मलकियत सिंह सं० 3339679 अब जे० सी०-
50762—13 अक्टूबर 1968।

हवलदार ध्यान सिंह सं० 3331420 अब जे० सी०-50750;
हवलदार प्यारा सिंह सं० 2435154 अब जे० सी० 50751;
हवलदार हरदयाल सिंह सं० 3336494 अब जे० सी०-50752
—12 अक्टूबर, 1968।

इन्फैन्ट्री

4 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजेन्द्र सिंह घरती सं० 5333084 अब जे० सी०-
50744—14 अक्टूबर 1968।

इन्फैन्ट्री

11 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मीनबहादुर लिम्बू सं० 9402388 अब जे० सी०-
50745—1 अक्टूबर 1968।

हवलदार पूरनाबहादुर राई सं० 9403001 अब जे० सी०-
50756—11 अक्टूबर 1968*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अगस्त 1968 से दी जायेगी)।

हवलदार खन्ना प्रसाद लिम्बू सं० 9402861 अब जे० सी०-
50757—16 अगस्त 1968।

हवलदार दलबहादुर राई सं० 9402769 अब जे० सी०-
50872—19 अक्टूबर 1968।

हवलदार कुमार राई सं० 9403361 अब जे० सी०-50873
—26 अक्टूबर, 1968।

हवलदार कुबीरधोज राई सं० 9403090 अब जे० सी०-
50870—31 अक्टूबर 1968*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 1968 से दी जायेगी)।

इम्फेन्दी**गढ़वाल राक्षफल्स****नायब सूबेदार के रैंक में**

हवलदार माया राम उनियाल सं० 4034805 अब जे० सी०-50763—7 जुलाई, 1968* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अप्रैल, 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार उमेश सिंह रावत सं० 4036012 अब जे० सी०-50764—27 अगस्त 1968** ।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मई, 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार खुशहाल सिंह रावत सं० 4036065 अब जे० सी०-50765—24 अक्टूबर, 1968@ ।

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 अगस्त, 1968 से दी जायेगी) ।

इम्फेन्दी**जम्मू और काश्मीर राक्षफल्स****नायब सूबेदार के रैंक में**

हवलदार संसार सिंह सं० 13711558 अब जे० सी०-50878—20 अगस्त 1968 ।

हवलदार रोमाल सिंह सं० 13717113 अब जे० सी०-50879—5 सितम्बर, 1968 ।

हवलदार मला सिंह सं० 13717306 अब जे० सी०-50880—14 अक्टूबर 1968 ।

हवलदार रत्न सिंह सं० 13712202 अब जे० सी०-50697—8 सितम्बर, 1968 ।

इम्फेन्दी**राजपूताना राक्षफल्स****नायब सूबेदार के रैंक में**

हवलदार राम सिंह राम सं० 2841563 अब जे० सी०-50723—29 जुलाई, 1968 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क राम सिंह सं० 2635487 अब जे० सी०-50702—7 नवम्बर, 1968 ।

बक्तरगढ़ कोर**नायब रिसालदार (एस० के० टी०) के रैंक में**

दफादार (एस० के० टी०) होशियार सिंह सं० 1010215 अब जे० सी०-50746—1 अक्टूबर, 1968 ।

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार फूलदेव कुजूर सं० 1019706 अब जे० सी०-50881—18 अक्टूबर 1968* ।

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 7 जून 1968 से दी जायेगी) ।

दफादार नथु सिंह सं० 1016822 अब जे० सी०-50882—28 जून 1968 ।

दफादार वीर बल सं० 1008030 अब जे० सी०-50884—1 जुलाई 1968 ।

दफादार मोहर सिंह सं० 1008026 अब जे० सी०-50883—1 अक्टूबर, 1968@ ।

@ (नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 1968 से दी जायेगी) ।

दफादार प्यारे लाल सं० 1010915 अब जे० सी०-50885—7 अगस्त, 1968 ।

दफादार सोहन सिंह सं० 1017586 अब जे० सी०-50886—9 सितम्बर 1968* ।

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अगस्त 1968 से दी जायेगी) ।

नायब रिसालदार (क्लर्क) के रैंक में

दफादार क्लर्क हरदर्शन सिंह सं० 1018312 अब जे० सी०-50875—2 नवम्बर 1968 ।

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 7 अक्टूबर 1968 से दी जायेगी) ।

सैनिक डाक्टरी कोर**नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) के रैंक में**

हवलदार/क्लर्क (जी० डी०) चन्द्रधर भट्ट सं० 6792567 अब जे० सी०-50650—28 सितम्बर 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अगस्त 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार/क्लर्क (जी० डी०) राम सरन सं० 6792979 अब जे० सी०-50651—27 अगस्त 1968 ।

हवलदार/क्लर्क (जी० डी०) कांसी राम सं० 6792756 अब जे० सी०-50652—2 सितम्बर, 1968 ।

हवलदार/क्लर्क (जी० डी०) स्वरन सिंह सं० 6792755 अब जे० सी०-50653 11 सितम्बर 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 सितम्बर 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार/क्लर्क (जी० डी०) प्रकाश लाल सं० 6792738 अब जे० सी०-50654—3 सितम्बर 1968 ।

हवलदार/क्लर्क (जी० डी०) बलदेव सिंह सं० 6792739 अब जे० सी०-50655—3 सितम्बर, 1968 ।

हवलदार/क्लर्क (जी० डी०) हीरा सिंह सं० 6732085 अब जे० सी०-50656—28 सितम्बर 1968* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 सितम्बर 1968 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार स्टोरकीपर मैकनिकल के रैंक में

हवलदार/एस के टी गंगा प्रसाद जोशी सं० 6762578 अब जे० सी०-50657—2 सितम्बर 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 मार्च 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार/एस के टी राम चन्दर सं० 6768059 अब जे० सी०-50658—10 अगस्त 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार/एस के टी मुन्सी राम सं० 6768085 अब जे० सी०-50659—18 सितम्बर 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जुलाई 1968 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार ब्लड ट्रान्सफ्यूजन असिस्टेन्ट के रैंक में

हवलदार/बी टी ए मदन लाल खेरा सं० 6759382 अब जे० सी०-50660—28 अगस्त 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 अगस्त 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार/बी टी ए कृष्ण देव सं० 6759719 अब जे० सी०-50661—9 सितम्बर 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अगस्त 1968 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार लेबोरेटरी असिस्टेन्ट के रैंक में

हवलदार/एल ए एस० भंजाजीत सिंह सं० 6759441 अब जे० सी०-50662—20 अगस्त 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जून 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार/एल ए रमेश चन्दर (सं० 6759615 अब जे० सी०-50663—19 अगस्त 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जून 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार/एल ए अनन्त राम सं० 6759624 अब जे० सी०-50664—8 अगस्त 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जुलाई 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार/एल ए आनन्द सिंह (सं० 6759684 अब जे० सी०-50665—31 अगस्त 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त 1968 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार औपरेटिंग रूम असिस्टेन्ट के रैंक में

हवलदार/ओ आर ए हरबन्स लाल सं० 6769787 अब जे० सी०-50666—28 जुलाई 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 1968 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार डेंटल टेक्नीशियन के रैंक में

हवलदार/डी टी राम नाथ शर्मा सं० 6781594 अब जे० सी०-50667—4 जून 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार/डी टी राम किशन शर्मा सं० 6759852 अब जे० सी०-50668—26 जुलाई 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जुलाई 1968 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार फीजियोथेपी असिस्टेन्ट के रैंक में

हवलदार/पी ए विश्वमित्राया सं० 6780086 अब जे० सी०-50669—17 मई 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 1968 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार एक्स-रे असिस्टेन्ट के रैंक में

हवलदार/एक्स-रे असिस्टेन्ट ई रामकिशन राव सं० 6782436 अब जे० सी०-50670—17 अगस्त 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 6 जुलाई 1968 से दी जायेगी) ।

सूबेदार मेजर अम्बूलेन्स असिस्टेन्ट के रैंक में

सूबेदार अम्बूलेन्स असिस्टेन्ट सम्पूर्ण सिंह जे० सी०-55441; सूबेदार अम्बूलेन्स असिस्टेन्ट जंगी सिंह जे० सी०-56898; सूबेदार अम्बूलेन्स असिस्टेन्ट लाल चम्पा जे० सी०-57244; सूबेदार अम्बूलेन्स असिस्टेन्ट हन्सराम जे० सी०-3151; सूबेदार अम्बूलेन्स असिस्टेन्ट बन्ताराम जे० सी०-3149—4 अक्टूबर 1968 ।

सैनिक फ़ाईनैन्स कोर**नायब सूबेदार एम्प्लोयेशन टेक्नीशियन के रैंक में**

हवलदार एन० पी० माधवन सं० 6862332 अब जे० सी०-50758—27 मई 1968*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 7 मई 1968 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार ब्लर्क सामान्य ड्यूटी के रैंक में

हवलदार प्रेम प्रकाश सं० 6847410 अब जे० सी०-50759—1 जून 1968 ।

इन्टेलीजेन्स कोर**नायब सूबेदार के रैंक में**

हवलदार रूप सिंह सं० 3830284 अब जे० सी०-50747—19 अक्टूबर, 1968 ।

हवलदार गुरमोज सिंह सं० 1023965 अब जे० सी०-50748—9 नवम्बर 1968 ।

कोर आफ इंजीनियर्स

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दत्ताराम दलवी सं० 1561738 अब जे० सी०-50767—13 जनवरी, 1968 ।

हवलदार यशवंत मोरे सं० 1561335 अब जे० सी०-50768—15 जनवरी, 1968 ।

हवलदार पुष्पोत्तम जोशी सं० 1509257 अब जे० सी०-50769—20 जनवरी 1968 ।

हवलदार अवतार सिंह सं० 1510540 अब जे० सी०-50770—20 जनवरी, 1968 ।

हवलदार शाम सुन्दर रेजिनारुड स्मिथ सं० 1509475 अब जे० सी०-50771—13 फरवरी, 1968 ।*

हवलदार नरंजन सिंह सं० 1509121 अब जे० सी०-50772—4 मार्च, 1968 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जनवरी, 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार गुरलाल सिंह सं० 1561964 अब जे० सी०-50773—1 फरवरी, 1968 ।

हवलदार शंकर देशपांडे सं० 1562373 अब जे० सी०-50774—1 फरवरी, 1968 ।

हवलदार व्यंकटराव भोसले सं० 1561625 अब जे० सी०-50775—5 फरवरी, 1968 ।

हवलदार संपत किंगले सं० 1510675 अब जे० सी०-50776—12 फरवरी, 1968 ।

हवलदार काका सिंह सं० 1508406 अब जे० सी०-50777—12 फरवरी, 1968 ।

हवलदार राजाराम मोरे सं० 1561993 अब जे० सी०-50778—7 अगस्त, 1968 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मार्च, 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार सेवा सिंह सं० 1509238 अब जे० सी०-50779—24 अप्रैल, 1968 ।

हवलदार सरजीत सिंह सं० 1508172 अब जे० सी०-50780—30 अप्रैल, 1968 ।*

हवलदार जोगिन्दर सिंह सं० 1508507 अब जे० सी०-50781—3 मई, 1968 ।*

हवलदार राजाराम कदम सं० 1561404 अब जे० सी०-50782—9 मई, 1968 ।*

हवलदार कृष्णा मादव सं० 1509330 अब जे० सी०-50783—13 मई, 1968 ।*

हवलदार विश्राम उत्तेकर सं० 1561435 अब जे० सी०-50784—13 मई, 1968 ।*

हवलदार बाबू सं० 1508389 अब जे० सी०-50785—8 जून, 1968 ।*

हवलदार इश्वरा जामदाडे सं० 1508897 अब जे० सी०-50786—24 जून, 1968 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता —24 अप्रैल, 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार तारा सिंह सं० 1561918 अब जे० सी०-50787—20 मई, 1968 ।

हवलदार सरदार सिंह सं० 1562079 अब जे० सी०-50788—20 मई, 1968 ।

हवलदार दलबीर सिंह सं० 1508957 अब जे० सी०-50789—20 मई, 1968 ।

हवलदार कस्तुरी लाल सं० 1510922 अब जे० सी०-50790—20 मई, 1968 ।

हवलदार नावाजी बागल सं० 1512058 अब जे० सी०-50791—20 मई, 1968 ।

हवलदार वसंतराव मोहिले सं० 1509642 अब जे० सी०-50792—20 मई, 1968 ।

हवलदार विगंबर लाल सं० 2938910 अब जे० सी०-50793 —12 जून, 1968 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 मई, 1968 से दी जायेगी) ।

कोर आफ इंजीनियर्स

एम० ई० एस० मिल केडर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भजन सिंह सं० 1511145 अब जे० सी० 50719—16 जुलाई, 1968 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मार्च 1967 से दी जायेगी) ।

हवलदार मोहिन्दर सिंह सं० 1418785 अब जे० सी० 50720 ---2 सितम्बर 1968* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जून 1968 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क के० सुकुमारन सं० 1311357 अब जे० सी० 50721---1 अगस्त 1968* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 जनवरी 1968 से दी जायेगी) ।

रक्षा तथा सुरक्षा फोर

नायब सूबेदार के रैंक में

सी एच एम बासदेव सिंह सं० 8796367 अब जे० सी० 50817---26 जुलाई 1968* ।

हवलदार बन्नीमोह सिंह सं० 8794678 अब जे० सी० 50818
हवलदार रतन सिंह सं० 8794681 अब जे० सी० 50819;
हवलदार एम सुसई फरनाखी सं० 8797614 अब जे० सी० 50820; हवलदार केके कुन्ही कनन नायर सं० 8801106 अब जे० सी० 50821---28 जुलाई 1968* ।

हवलदार करम सिंह सं० 8794270 अब जे० सी० 50822 ---31 जुलाई 1968* ।

हवलदार सी० अप्पन्ना सं० 8806390 अब जे० सी० 50823---5 अगस्त 1968* ।

हवलदार बदरी दत्त सं० 8801810 अब जे० सी० 50824 ---7 अगस्त 1968* ।

हवलदार नीवरासी करमारकर सं० 8806378 अब जे० सी० 50825; हवलदार नीलकंठ सेठी सं० 8806179 अब जे० सी० 50826---9 अगस्त 1968* ।

हवलदार के० बी० सुब्बाराव सं० 8799274 अब जे० सी० 50827---10 अगस्त 1968* ।

हवलदार एम० बी० वेलायुधन सं० 8799032 अब जे० सी० 50828---12 अगस्त 1968* ।

हवलदार रामचन्द्र सं० 8796084 अब जे० सी० 50829;
हवलदार जी सहदेवन सं० 8801307 अब जे० सी० 50830---13 अगस्त 1968* ।

बी क्यू एम एच आर स्वामी घोरई सं० 8803022 अब जे० सी० ---9 सितम्बर, 1968* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जुलाई 1968 से दी जायेगी) ।

इफ्फाद्री

गारद बिगड

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तुलसी राम सं० 2430258 अब जे० सी० 50749---4 जुलाई, 1968 ।

हवलदार मोहम्मद शाह खान सं० 13651781 अब जे० सी० 50754 ---18 सितम्बर, 1968 ।

तोपखाना रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

बी एच एम ए० के० बलियप्पा सं० 1110045 अब जे० सी० 50794---17 जुलाई 1968* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 1968 से दी जायेगी) ।

बी एच एम मदनपाल सिंह सं० 1121429 अब जे० सी० 50795---2 जून 1968 ।

आर एच एम दलीप सिंह सं० 1130594 अब जे० सी० 50796---6 जून 1968 ।

हवलदार पी० के० सम्पूल सं० 1143550 अब जे० सी० 50797---11 सितम्बर 1968* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 1968 से दी जायेगी) ।

बी क्यू एम एच काबल सिंह सं० 1138910 अब जे० सी० 50798---2 जुलाई 1968 ।

हवलदार सरजीत सिंह सं० 1146286 अब जे० सी० 50799---14 अगस्त 1968* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 जुलाई 1968 से दी जायेगी) ।

बी एच एम हवलदार सिंह सं० 1204975 अब जे० सी० 50800---9 जुलाई 1968 ।

बी क्यू एम एच बेयन्त सिंह सं० 1134989 अब जे० सी० 50801---29 अगस्त 1968* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जुलाई 1968 से दी जायेगी) ।

बी क्यू एम एच रनबीर सिंह सं० 1128892 अब जे० सी० 50802; हवलदार दीलत सिंह राठौर सं० 1144136 अब जे० सी० 50803; बी क्यू एम एच ओम प्रकाश सं० 1130038 अब जे० सी० 50804---29 जुलाई 1968 ।

हवलदार चन्दर भान सं० 1140014 अब जे० सी० 50805---24 अगस्त 1968* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जुलाई 1968 से दी जायेगी) ।

आर क्यू एम एच सुमेर सिंह सं० 1130199 अब जे० सी० 50806---31 जुलाई 1968 ।

हवलदार राम सरूप सं० 6855407 अब जे० सी० 50807;
आर क्यू एम एच गोकल सिंह सं० 1120249 अब जे० सी० 50808; हवलदार सुरज प्रकाश सं० 1128401 अब जे० सी० 50809---1 अगस्त 1968 ।

बी क्यू एम एच रघुबीर सिंह सं० 1138269 अब जे० सी०-50810—31 अगस्त 1968%

%*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1968 से दी जायगी।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क भवर् सिंह सं० 1135742 अब जे० सी०-50811—1 अगस्त 1968।

हवलदार क्लर्क राज लाल सं० 3942880 अब जे० सी०-50812—15 अगस्त 1968*@।

*@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 7 अगस्त 1968 से दी जायगी)।

हवलदार क्लर्क अमर सिंह सं० 1136221 अब जे० सी०-50813—26 सितम्बर 1968—*E

*E (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 1968 से दी जायगी)।

हवलदार क्लर्क मूलराज शर्मा सं० 1136339 अब जे० सी०-50814—16 सितम्बर, 1968;*&

हवलदार क्लर्क दी० के० नारायण नम्बियार सं० 1136462 अब जे० सी०-50815—21 सितम्बर 1968*&

*& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 7 सितम्बर 1968 से दी जायगी)।

हवलदार क्लर्क पी० के० श्रीधरन नम्बियार सं० 1136665 अब जे० सी०-50816—16 सितम्बर, 1968 1%*

%*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर 1968 से दी जायगी)।

एफ० एम० बीरजी, अवर सचिव

सं० 3275, तारीख 13 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक सेवा कोर

(मोटर परिवहन)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नारायण चंद्र घोष सं० 6574614 अब जे० सी०-50832—9 मार्च 1968।

हवलदार राजा सिंह सं० 6565011 अब जे० सी०-50833—17 अप्रैल 1968*।

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मार्च 1968 से दी जाएगी)।

हवलदार दीवान चंद सं० 6559112 अब जे० सी०-50834—21 मार्च 1968।

हवलदार राजिंद्र सिंह सं० 6581891 अब जे० सी०-50835—9 अप्रैल 1968।

हवलदार रणजीत सिंह सं० 6564853 अब जे० सी०-50836—1 मई 1968।

हवलदार चंद्र देव दुवे सं० 6547316 अब जे० सी०-50837—6 मई 1968।

हवलदार ऊमा गंकर सिंह सं० 6564993 अब जे० सी०-50838—11 मई 1968।

हवलदार सईद कास्सीम सं० 6547554 अब जे० सी०-50839—1 जुलाई 1968%।

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मई 1968 से दी जायगी)।

हवलदार जय सिंह सं० 6558427 अब जे० सी०-50840—20 मई 1968।

हवलदार परमेश्वर सिंह सं० 6558518 अब जे० सी०-50841—18 जून 1968X।

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 1968 से दी जायगी)।

हवलदार राम चंद्र सं० 6556563 अब जे० सी०-50842—1 जून 1968।

हवलदार पोख राज सं० 6576470 अब जे० सी०-50843—1 जून 1968।

हवलदार जीवन सिंह सं० 6565238 अब जे० सी०-50844—23 जून 1968**।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 जून 1968 से दी जाएगी)।

हवलदार दुती चंद सं० 6558540 अब जे० सी०-50845—10 जून 1968।

हवलदार कंचन सिंह सं० 6565114 अब जे० सी०-50846—12 जून 1968।

हवलदार कोल्लारीकल गोपालन नायर सं० 6564312 अब जे० सी०-50847—13 जून 1968।

हवलदार गोबिन्द वल्लभ सं० 6558555 अब जे० सी०-50848—15 जून 1968।

हवलदार बापा लाल सं० 6577614 अब जे० सी०-50849—24 अगस्त 1968%%।

%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जून 1968 से दी जाएगी)।

हवलदार ईश्वर देव सं० 6556771 अब जे० सी०-50850—20 जून 1968।

हवलदार दीप चंद्र सं० 6559302 अब जे० सी०-50851—14 जुलाई 1968XX।

XX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जून 1968 से दी जाएगी)।

हवलदार महा सिंह सं० 6565331 अब जे० सी०-50852:
—23 जुलाई 1968*** ।

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जून 1968 से दी जाएगी) ।

हवलदार जीवन चंद्र बिसबास सं० 6572502 अब जे० सी०-50853—12 जुलाई 1968%%%

%%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 1968 से दी जाएगी) ।

हवलदार भगवती नटराजन सं० 6564478 अब जे० सी०-50854—10 अगस्त 1968XXX ।

XXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 1968 से दी जाएगी) ।

हवलदार संत राम सं० 6561909 अब जे० सी०-50855;
हवलदार सुरेशानंद सं० 6572605 अब जे० सी०-50856;
हवलदार राम सिंह सं० 6563460 अब जे० सी०-50857;
हवलदार अमरीक सिंह सं० 6572622 अब जे० सी०-50858;
हवलदार विक्रम सिंह सं० 6563600 अब जे० सी०-50859;
हवलदार अरुमुगम सं० 6549274 अब जे० सी०-50860;
हवलदार ऊमेव सिंह सं० 6556565 अब जे० सी०-50861;
हवलदार सरवन दास सं० 6556566 अब जे० सी०-50862—
1 जुलाई 1968 ।

हवलदार नागराज वेंकट रामन सं० 6343483 अब जे० सी०-50863—4 जुलाई 1968 ।

हवलदार विमल चंद्र दत्ता सं० 6572680 अब जे० सी०-50864—8 जुलाई 1968 ।

हवलदार दलीप चंद्र सं० 6556951 अब जे० सी०-50865—12 जुलाई 1968 ।

हवलदार दलीप सिंह सं० 6572705 अब जे० सी०-50866—14 जुलाई 1968 ।

हवलदार सूरत सिंह सं० 6572707 अब जे० सी०-50867; हवलदार रत्न सिंह सं० 6556983 अब जे० सी०-50868—25 जुलाई 1968 ।

हवलदार रघुवीर सिंह सं० 6572711 अब जे० सी०-50869—26 जुलाई 1968 ।

सी० बी० नारायणन, अवर सचिव

सं० 3279, तारीख 7 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उनकी अपनी प्रार्थना पर निजी कारणों से थल सेना से निवृत्त होने की, और थल सेना अनुदेश 10/एस०/63 के अधीन उनका तबादला अफसरों के नियमित रिजर्व (श्रेणी 'एक्स') में करने की अनुमति देते हैं :—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

लेफ्टिनेंट कर्नल बी० बी० मोहतरा आई० सी०-5252:
ए० एस० सी०—21 जनवरी 1968 ।

लेफ्टिनेंट कर्नल के० एस० देवल आई० सी०-2143:
सिगनल—21 अप्रैल 1968 ।

लेफ्टिनेंट कर्नल डब्ल्यू० एच० वाकर आई० सी०-2367
इंजीनियर्स—25 अप्रैल 1968 ।

मेजर के० पी० सिंह आई० सी०-2691 इन्फैंट्री—5
फरवरी 1968 । (पायनियर कोर में स्थाई रूप से)

सं० 3281, तारीख 11 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उनकी अपनी प्रार्थना पर निजी कारणों से थल सेना से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं :—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

लेफ्टिनेंट कर्नल एस० एस० चौधरी आई० सी०-486
सिगनल—15 मार्च 1968 ।

लेफ्टिनेंट कर्नल डी० एस० सोढी आई० सी०-3499
इन्फैंट्री—19 मार्च 1968 ।

लेफ्टिनेंट कर्नल कैलाश नाथ रामपाल आई० सी०-6076
ई० एम० ई०—7 अप्रैल 1968 ।

एफ० एम० बीरजी, अवर सचिव

सं० 3282, तारीख 7 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अफसरों को उनकी अनिवार्य अवकाश प्राप्त करने की आयु होने पर उनको सैनिक सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

नियमित कमीशन

मेजर स्वामी बैंगलोर नारायण बी० 90-आर० बी०
सी०—21 नवम्बर 1966 ।

लेफ्टि कर्नल मेहर चन्द्र बी० 108-आर० बी० सी०—2
अगस्त 1967 ।

कैप्टन राजु राजा राम रंगा स्वामी बी० 97-आर० बी०
सी०—5 सितम्बर 1967 ।

मेजर कटकर थारुमलराओ नारायणराओ आई० सी०-7992 आर० बी० सी०—1 जुलाई 1968 ।

सी० बी० नारायणन्, अवर सचिव

सं० 3283, तारीख 11 नवम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित सेना अधिकारियों को 1 अगस्त 1968 से थल सेना अनुदेश 9/एस०/62 पहरा 15(अ) (तीन) के अन्तर्गत सेना से सेवा मुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

आपासी कमीशन

लेफ्टिनेंट राजेन्द्र प्रकाश (ई० सी० 54108) इन्फैंट्री,
लेफ्टिनेंट जी० जी० शर्मा (ई० सी० 54111) इन्फैंट्री

लेफ्टिनेन्ट जी० एल० शर्मा (ई० सी० 54242) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट के० के० कोहली (ई० सी० 54248) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट रसपाल सिंह (ई० सी० 54249) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट आर० एस० चौधरी (ई० सी० 54282) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट पी० के० बलभुवन (ई० सी० 54292) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट डी० एन० राठीर (ई० सी० 54249) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट पी० सी० गुप्ता (ई० सी० 54316) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट प्रभु नारायण सिंह (ई० सी० 54342) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट जे० एस० सेखन (ई० सी० 54347) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट के० एस० शर्मा (ई० सी० 54351) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट एम० एस० गुरंग (ई० सी० 45363) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट नरिन्दर पाल सिंह (ई० सी० 54372) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट डी० डी० भट्ट (ई० सी० 54379) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट एन० आर० मिश्रा (ई० सी० 54395) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट डी० एस० मानहन्स (ई० सी० 54441) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट एस० एस० सिरोही (ई० सी० 54442) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट एम० एम० बक्शी (ई० सी० 54447) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट कृष्णा (ई० सी० 54479) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट जे० एस० चौपरा (ई० सी० 54516) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट लखविन्दर सिंह (ई० सी० 54540) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट पी० के० घोष (ई० सी० 54545) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट चरन सिंह (ई० सी० 54551) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट वी० एम० चौपरा (ई० सी० 54555) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट जगपाल सिंह (ई० सी० 54556) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट एस० के० कपूर (ई० सी० 54561) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट एस० सी० घोष (ई० सी० 54562) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट ए० प्रदीप सिंह (ई० सी० 54575) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट ओम प्रकाश सिंह (ई० सी० 54596) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट के० एम० चौहान (ई० सी० 54605) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट टी० आर० सिखा (ई० सी० 54624) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट आर० एन० शर्मा (ई० सी० 54627) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट आर० एस० खूपहार (ई० सी० 54636) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट एच० बहल (ई० सी० 54639) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट आर० एन० अरोड़ा (ई० सी० 64641) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट चमन लाल (ई० सी० 54657) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट जे० एस० बक्शी (ई० सी० 54659) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट बलजीत सिंह (ई० सी० 54673) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट एस० बी० सेही (ई० सी० 50677) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट जी० एल० शर्मा (ई० सी० 54710) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट एस० के० पाण्डे (ई० सी० 54711) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट पी० सी० परिजा (ई० सी० 54716) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट सुखजिन्दर सिंह (ई० सी० 54723) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट एस० के० सेम (ई० सी० 54746) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट बी० बी० एल० अग्रवाल (ई० सी० 54767) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट एस० खेल (ई० सी० 54780) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट टी० एस० सलूजा (ई० सी० 54762) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट आर० एस० कौटियाल (ई० सी० 54790) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट आर० एल० गुप्ता (ई० सी० 54793) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट बलमीर सिंह (ई० सी० 54716) इन्फैन्ट्री,

लेफ्टिनेन्ट वी० एस० चवल (ई० सी० 54819) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट बी० एस० डी० कटियाल (ई० सी० 54212) इन्फैन्ट्री,
 लेफ्टिनेन्ट जे० के० साहनी (ई० सी० 54269) इन्फैन्ट्री।

एफ० एम० वीरजी, अवर सचिव

सं० 3286, तारीख 16 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति
 निम्नलिखित स्थाई ई० एम० ई० आफिसर (सिविलियन)
 अवकाश प्राप्त आयु पर पहुँच जाने पर उनके नाम के सामने
 दी गई तारीख से सेवा से विवृत्त हुए :—

बिजली और मशीन इंजीनियरिंग फोर

श्री अत्तर चन्द सेठी—21 अक्टूबर 1968 (मध्यान्तर)।

सं० 3287, तारीख 16 दिसम्बर 1968—निम्नलिखित
 स्थाई हैड क्लर्क ग्रेड 2 स्थानापन्न ई० एम० ई० आफिसर
 (सिविलियन) की उनके नाम के सामने दी गई तिथि को
 मृत्यु हुई :—

बिजली और मशीन इंजीनियरिंग फोर

श्री मधुगुप्त—15 नवम्बर 1968।

सं० 3288, तारीख 13 दिसम्बर 1968—अवकाश प्राप्त
 करने की आयु को प्राप्त होने पर निम्नलिखित अधिकारी उनके
 नाम के सामने दी गई तिथि से नौकरी से रिटायर हुए :—

सैनिक इंजीनियर सेवाएं

श्री एफ० सी० गुप्ता मुफरवाँजर वी०/एस० ग्रेड स्थाई
 और वी० एस० ओ० अस्थायी—21 जून 1966 (अपराह्न)।

श्री वी० एन० सनयाल स्थाई ई० ई० और अस्थायी
 एस० ई०/प्रोफेशन—7 अक्टूबर 1968 (उपराह्न)।

कस्तूरी लाल, अवर सचिव

सं० 3289, तारीख 13 दिसम्बर 1968—निम्नलिखित
 अधिकारी का निम्नलिखित आज्ञापत्र उसके नाम के सामने लिखी
 गई तिथि से हटा दिया गया :—

सैनिक इंजीनियर सेवाएं

श्री एल० एस० बदामी स्थाई ई० ई०—22 फरवरी 1968
 (पूर्वाह्न)।

आर० एस० चौधरी, अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

सं० 3290, (vi), तारीख दिसम्बर 1968—
 26 अक्टूबर 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा
 मंत्रालय की अधिसूचना सं० 2724 तारीख 20 सितम्बर 1968,
 जहाँ तक लेफ्टि० सुरिन्द्रा लाल (आई० सी०-17132), इन्जी-
 नियर संबंधित है, रद्द किया जाता है।

शुद्धि-पत्र

सं० 3920(Vii), तारीख दिसम्बर 1968—21 शितम्बर 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 2335 तारीख 7 अगस्त 1968, जहाँ तक सेफ्टि० आर० पी० मिशरा के संबंधित है, रद्द किया जाता है।

एफ० एम० बीरजी, अवर सचिव

सं० 3291, तारीख 7 दिसम्बर 1968—रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3010 तारीख 20 अक्टूबर 1967 जो भारत के राजपत्र तारीख 4 नवम्बर 1967 में 'नियमित सेना' शीर्षक 'नियमित कमीशन' के अन्तर्गत हुई है, से० कर्नल रोशन लाल भाटिया (बी० 30) आर० बी० सी० के सामने 21 फरवरी 1963 के स्थान पर 21 फरवरी 1965 पढ़िए।

सी० बी० नारायणन्, अवर सचिव

(नौसेना विभाग)**नौसेना मुख्यालय**

सं० 3292, तारीख 12 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :—

(क) श्री आर० एस० सूद, स्थायी अधीक्षक को श्री बी० आर० सूर के स्थान पर, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है, 28 मई 1968 से 27 जुलाई 1968 तक स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अफसर के पद पर।

(ख) श्री एस० एस० सोही, स्थायी सहायक को, श्री आर० एस० सूद के स्थान पर, जिन्हें पदोन्नत किया गया है, 28 मई 1968 से 27 जुलाई 1968 तक स्थानापन्न अधीक्षक के पद पर।

नौसेना मुख्यालय

सं० 3293, तारीख 12 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति श्री बी० एन० कौल, स्थायी अधीक्षक को श्री पी० डी० पुरी के स्थान पर, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है, 1 अप्रैल 1968 से 10 मई 1968 तक स्थानापन्न रूप में अधीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० डी० जैन, सहायक मुख्य प्रशासन अफसर

सं० 3294, तारीख 10 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति भारतीय नौसेना की सप्लाई एण्ड सेफ्टेरियट ब्रान्च में नौसेना विनियमावली भाग III के विनियम 128 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :—

भारतीय नौसेना**(अल्प सेवा कमीशन)****सप्लाई एण्ड सेफ्टेरियट ब्रान्च**

कार्यकारी सब-लेफ्टि० के पद पर, उनके नामों के सामने दी गई तारीख से परखावधि पर :—

त्रिलोचन मिश्र

गोलक साहू

सुशील कुमार रेमजे

प्रेम चन्द यादव

पहलीपरम्बिल जाव आगस्टाइन

विजय कुमार वैद

30 अक्टूबर 1967।

मधुसूदन साहू
वेन्दोति जोशुआ

6 नवम्बर 1967।

एस० चौरसिया, अवर सचिव

सं० 3295, तारीख 10 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :—

तारीख 18 मार्च 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 808 तारीख 24 फरवरी 1967 के संदर्भ में सर्वश्री पी० पी० अंब्रावे और सी० एन० एन० स्वामी, स्थानापन्न सहायक नौसेना स्टोर अफसर के पद पर 31 मार्च 1969 तक तदर्थ आधार पर या जब तक इन पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति नहीं की जाती, जो भी पहले हो, कार्य करते रहेंगे।

सं० 3296, तारीख 10 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :—

श्री एस० डी० शर्मा, अस्थायी उप आयुध सप्लाई अफसर, श्रेणी I, श्री एस० बिट्टल के स्थान पर, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है, अपने कार्यों के अतिरिक्त नौसेना आयुध सप्लाई अफसर (श्री० जी०) के वर्तमान कार्यों के भी प्रभारी होंगे :— 5 फरवरी 1968 से 7 मार्च 1968।

श्री बी० बी० गोरे, स्थायी एस० एच० एम०, अस्थायी सीनियर फोरमैन आफ स्टोर्स को श्री जे० एफ० रोशा के स्थान पर, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है, स्थानापन्न सहायक नौसेना स्टोर अफसर के पद पर—25 मई 1968 से 3 अगस्त 1968।

श्री एफ० डि'सूजा, स्थायी यू० डी० सी०, अस्थायी अधीक्षक को श्री एस० रामचन्द्रन, के स्थान पर, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है, स्थानापन्न सिविलियन राजपत्रित अफसर के पद पर—18 मई 1968 से 2 दिसम्बर 1968।

एन० बी० स्वामीनाथन, अवर सचिव

(एयर ब्रांच)

सं० 3297, तारीख 13 दिसम्बर 1968—निम्नलिखित नियुक्ति की जाती है :—

वैयक्तिक स्टाफ

राष्ट्रपति अपने वैयक्तिक स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

ए० डी० सी० के पद पर

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट एन० एल० गुप्त (6013) जी० डी० (पी०)—24 अक्टूबर, 1968 (पूर्वार्ध)

जी० सी० अग्रवाल, अवर सचिव

सं० 3298, तारीख 17 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :—

स्थायी सिविलियन स्टोर कीपर ग्रेड I/अस्थायी सी० जी० ओ० (इक्विपमेन्ट) ग्रेड III को आगामी आदेश पर्यन्त स्थानापन्न सी० जी० ओ० (इक्विपमेन्ट) ग्रेड II के पद पर :—

श्री के० रामजी — 23 सितम्बर, 1968

श्री एन० के० रमन — 23 सितम्बर, 1968

मेनन

अफसर दो वर्ष तक परखाधीन रहेंगे।

एन० बी० स्वामीनाथन, अवसर सचिव

सं० 3299, तारीख 12 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नामों के सामने दी गई तारीख से अपना थोड़े समय का अन्तिम सेवा कमीशन छोड़ देने की अनुमति देते हैं और उसी तारीख से उन्हें थोड़े समय का सेवा कमीशन (परखाधीन प्रदान करते हैं) :—

इंडियन एयर फोर्स

टेक्निकल (सिगनल) ब्रांच

आर० जे० प्रसाद (8923); पी० सी० एस० रीतेला (9576); बी० खन्ना (9577); सी० जी० कन्डारवाही (8919); एम० के० गुप्त (9310); आर० के० सूरी (8918); एम० ए० रहमान (8280); डेरिक रीवर्ट्स (8934); के० आर० वाली (9582); आर० के० बथा (9588); पी० जगन्नाथन (8920); सी० बी० चौधरी (8844) और एम० बी० मजुमदार (8917)—4 अक्टूबर, 1965।

होशनाफ सिंह, अवसर सचिव

सं० 3300, तारीख 16 दिसम्बर, 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को ग्रेड कैप्टन के कार्यकारी रैंक में पदोन्नत करते हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

ए० एण्ड एस० डी० ब्रांच

बिग कमांडर एच० एल० कपूर (2165)—1 अगस्त, 1968।

एस० आर० गुरुस्वामी, उप-सचिव

सं० 3301, तारीख 12 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित फ्लाइट लेफ्टिनेंट को स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं।

इंडियन एयर फोर्स

जी० डी० (पी०) ब्रांच

ए० एन० ओबराय (5385)—29 मई 1968।

सं० 3302, तारीख 13 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित फ्लाइट लेफ्टिनेंटों को स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

जी० डी० (पी०) ब्रांच

बी० के० कपूर (5310), एम० के० जैन (5327) और पी० एन० छाबरा (5334)—23 मार्च 1968।

सं० 3303, तारीख 9 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित फ्लाइट ऑफिसर को, उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से, फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं :—

आइजिलियरी एयर फोर्स

टेक्निकल/सिगनल ब्रांच

फ्लाइट अफसर हृदय स्वरूप कुलश्रेष्ठ (आग्र : 30149)—21 मई, 1968।

(एस० डी०)

सं० 3304, तारीख 13 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में जी० डी० (एन०) से ए० एण्ड एस० डी० ब्रांच में स्थानान्तरित करते हैं। किन्तु भारत सरकार, रक्षा मन्त्रालय के पत्र सं० एयर हे० क्वा० 21901/4766/पी० ओ० 2/10454/डी (ए-III) तारीख 31 अक्टूबर, 1968 के अन्तर्गत इस रैंक में इस अफसर को ज्येष्ठता 17 जुलाई, 1966 से होगी।

इंडियन एयर फोर्स

स्क्वाड्रन लीडर आर० पी० आनन्द (4766)—3 मई 1968।

सं० 3305, तारीख 13 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त करते हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

सेट० ब्रांच

फ्लाइट अफसर बी० के० नम्बियार (6886)—18 जून, 1968।

होशनाफ सिंह, अवसर सचिव

(नौसेना विभाग)

3306, तारीख 9 दिसम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को सेवा निवृत्ति सूची में शामिल करते हैं :—

भारतीय नौसेना

(स्थायी कमीशन)

एक्जीक्यूटिव ब्रान्च

कैप्टन (कमोडोर) जे० एस० मेहरा—4 सितम्बर, 1968

कैप्टन (कमोडोर) जे० डी० मोदी—31 मार्च, 1968

कैप्टन (कमोडोर) एच० आर० कलाडियस—8 अगस्त, 1968।

कैप्टन (कमोडोर) एल० एन० सी० जैसुदासन—2 सितम्बर 1968।

राष्ट्रीय एण्ड सेफ्टीरिड

लेफ्टि० कमांडर (कार्यकारी कमांडर डब्ल्यू०एच० ए०) बी०
डी० सचदेव—31 जुलाई, 1968।

लेफ्टि० कमांडर (एस० डी०) (एस०) आर० सी० एफ०
पाटिल—13 जुलाई 1968।

अजीत सिंह, अवर सचिव

(एयर ब्रांच)

सं० 3307, तारीख 9 दिसम्बर, 1968—नियमित एयर
फोर्स में कार्यकाल समाप्त होने पर राष्ट्रपति निम्नलिखित एयर
अफसर को उनकी सेवा निवृत्ति पर नियमित एयर फोर्स रिजर्व
में स्थानान्तरित करते हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

बी० डी० सी० ब्रांच

एयर वाइस मार्शल एस० एन० गोयल (1560)—8
अगस्त, 1968 से 7 अगस्त, 1973 तक।

सं० 3308, तारीख 27 नवम्बर 1968—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित अफसर को नियमित एयर फोर्स से स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त
होने पर नियमित एयर फोर्स रिजर्व में स्थानान्तरित करते
हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

जी० डी० (एन० ब्रांच)

स्क्वाड्रन लीडर के० पी० सूरी (5090)—1 अप्रैल, 1968
से 31 मार्च, 1973 तक।

होशनाक सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th December 1968

No. 3237, dated 10th December 1968.—The President is
pleased to appoint the following permanent Assistants to
officiate as Section Officers, Min. of Def. for the period men-
tioned against them :—

- Shri D. N. Mitra—from 1-12-1968 to 31-12-1968.
Shri S. J. S. Luthra—from 1-12-1968 to 31-12-1968.
Shri C. B. S. Luthra—from 1-12-1968 to 31-12-1968.
Shri J. C. Sathe—from 1-12-1968 to 31-12-1968.
Shri Balwant Singh—from 1-12-1968 to 31-12-1968.
Shri J. S. Ahluwalia—from 1-12-1968 to 31-12-1968.
Shri Raghunandan Lal—from 1-12-1968 to 31-12-1968.
Shri K. C. Bhalla—from 1-12-1968 to 31-12-1968.
Shri C. N. Pratap—from 1-12-1968 to 28-12-1968 and
from 30-12-1968 to 31-12-1968.
Shri M. G. Harish—from 19-11-1968 to 20-12-1968.
Shri Inder Varma—from 17-11-1968 to 31-12-1968.
Shri Ram Samujh—from 25-11-1968 to 28-12-1968.
Shri R. P. Advaney—from 29-11-1968 to 31-12-1968.
Shri G. D. Jatav—from 19-11-1968 to 19-12-1968.
Shri R. A. Sharma—from 1-12-1968 to 31-12-1968.

No. 3238.—The President is pleased to appoint the follow-
ing permanent Grade I officers of the C.S.S.S. to officiate
as Section Officers, Ministry of Defence for the period men-
tioned against them :—

- Shri S. S. Saxena—from 1-12-1968 to 4-1-1969.
Shri R. Ramachandran—from 1-12-1968 to 2-12-1968 &
from 4-12-1968 to 31-12-1968.

No. 3239.—The President is pleased to appoint the follow-
ing Grade II officers of the C.S.S.S. to officiate in Grade I
of the Service in the Ministry of Defence for the period
mentioned against them :—

- Shri B. L. Malik—from 1-12-1968 to 4-1-1969.
Shri D. P. Bhargava—from 1-12-1968 to 2-12-1968 and
from 4-12-1968 to 31-12-1968.

No. 3240.—On completion of executive training in Punjab,
and expiry of leave and joining time Shri A. S. Bedi, permt.
Section Officer of the cadre of the Min. of Def. resumed
duties as Section Officer, Min. of Def. w.e.f. the 9th Dec.
1968.

C. L. DHINGRA, Under Secy.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 3241, dated 11th Dec. 1968.—The President is pleased
to make the following appointments :—

DEFENCE SCIENCE SERVICE

Dr. Hari Singh, Temp. Sr. Scientific Officer Grade I (on
ad-hoc basis), Jiwaji Research Laboratory Detachment
Defence Research Laboratory (Materials), Gwalior to be
Temp. Sr. Scientific Officer Grade I in the same establish-
ment on prob., for a period of two years, 14th Aug. 1968
(F.N.).

DEFENCE SCIENCE SERVICE

No. 3242, dated 9th Dec. 1968.—Consequent on acceptance
of his resignation Shri Radhe Shyam Satija, tempy. Junior
Scientific Officer, Directorate of Scientific Evaluation,
Research & Development Organisation, New Delhi, relin-
quished charge of the appointment—30 Aug. 1968. (F.N.).

Consequent on acceptance of his resignation, Shri S. Sri-
dhar, Junior Scientific Officer, Aeronautical Development
Estt., Bangalore, relinquished charge of the appointment—
31st Aug. 1968 (A.N.).

CORRIGENDUM

No. 3243, dated 7th Dec. 1968.—In Ministry of Defence
Notification No. 1672, dated 5th Jun. 1967 published in the
Gazette of India, dated 17th Jun. 1968 under the heading
"Defence Research & Development Organisation—Defence
Science Service" against the name of SHRI HARPHOOL
SINGH YADVA for "Institute of Nuclear Medicine &
Allied Sciences, Delhi" Read "Defence Food Research
Laboratory, Mysore".

Smt. J. KATHPALIA, Under Secy.

DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION

No. 3244, dated 7th Dec. 1968.—The President is pleased
to make the following appointment :—

Ref. Notn. No. 1594, dated 15th May 1967, published in
the Gazette of India, dated 10th June 1967, Shri R. L.
Srivastava, to continue to be tempy. civilian Asst. Security
Officer at the Inspectorate of General Stores, West India,
Bombay from 27th Oct. 1967 to 31st Dec. 1968 (A.N.) or
till the post is filled through the Union Public Service Com-
mission, whichever is earlier.

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

No. 3245, dated 17th Dec. 1968.—The President is pleased
to make the following promotion :—

DEFENCE SCIENCE SERVICE

Shri L. Lobo, tempy. Jr. Scientific Officer (permt. Fore-
man), Dte. of Inspection (Armaments), New Delhi to be
Sr. Scientific Officer Grade II in the same Directorate.
30th Nov. 1968 (F.N.).

Smt. J. KATHPALIA, Under Secy.

NATIONAL CADET CORPS

No. 3246, dated 6th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following promotions:—

*Senior Division (Army Wing)**Cpts. to be Majors**West Bengal*

P. N. Mukherjee (NCC/2439), 13th Mar., 1968.

Uttar Pradesh

B. S. Matharu (NCC/5131), 13th Sep. 1968.

*Lts. to be Cpts.**Madras*

N. A. Ameerli (NCC/1264), A. M. Abdul Wahid (NCC/1270), Arokianathan Mahimaidoss (NCC/1259), V. R. Kanniah (NCC/1272), 26th June 1968.

J. B. Williams (NCC/1408), 1st Apr. 1968.

West Bengal

M. B. Saha (NCC/2587), J. N. Biswas (NCC/2602), 26th Jan. 1968.

Sudhansu Ganguli (NCC/2605), 18th Mar., 1968.

S. P. Das (NCC/2609), 17th July, 1968.

S. L. Chatterjee (NCC/2864), 1st July, 1968.

S. N. Das (NCC/2957), 17th Aug., 1968.

Uttar Pradesh

Prakash Chandra (NCC/4283), 26th June, 1968.

R. C. Sharma (NCC/4286), 28th June, 1968.

L. C. Sharma (NCC/4289), 28th July, 1968.

H. A. Alhashmi (NCC/4292), Jalal Uddin (NCC/4293) and Sibte Hasan (NCC/4299), 29th July, 1968.

Kerala

Edathaita Sathyanath (NCC/7671) and C. B. Fernandez (NCC/7675), 31st July, 1968.

Orissa

A. K. Roy (NCC/8845), G. K. Padhi (NCC/8841) and R. K. Kar (NCC/8847), 26th June, 1968.

Sanatan Mohanty (NCC/8831), 1st Apr., 1967.

Jagannath Patnaik (NCC/8833), 26th July, 1967.

Rajasthan

S. P. Singh (NCC/9184) and P. L. Bhargava (NCC/9185), 1st July, 1968.

Mahesh Varma (NCC/9176), 16th June, 1968.

S. M. Chaudhri (NCC/9190), 31st July, 1968.

Jammu & Kashmir

M. S. Uddin (NCC/10217), 13th Jan., 1968.

M. A. Tawana (NCC/10219) and C. L. Shangloo (NCC/10218), 7th June, 1968.

B. R. Sharma (NCC/10221), 14th June, 1968.

*2/Lts. to be Lts.**Maharashtra*

P. M. Waradpande (NCC/687) and V. V. Shukla (NCC/686), 30th Aug., 1968.

Madras

S. Vaidyanathan (NCC/1630), 10th Aug., 1967.

Nagasundaram Rajagopalan (NCC/1313), 28th May, 1964.

Madhya Pradesh

B. M. L. Manocha (NCC/2255) and D. N. Sharma (NCC/2252), 30th Aug., 1968.

West Bengal

H. P. Mukhopadhyay (NCC/3004) and J. K. Chattopadhyay (NCC/3008), 28th June, 1967.

Bimal Ghosh (NCC/2684) and C. K. Mitra (NCC/2692), 1st April, 1966.

Kumares Ghose (NCC/2801), B. K. Chakraborty (NCC/3068), Arnab Kar (NCC/3074), and P. K. Mitra (NCC/3078), 30th June, 1968.

K. K. Sen (NCC/3054), A. K. R. Chaudhuri (NCC/3059) and S. K. Bag (NCC/3061), 28th Mar., 1968.

Uttar Pradesh

S. N. Pandey (NCC/4529), R. A. Misra (NCC/4537) and R. P. P. Maurya (NCC/4546), 29th Mar., 1966.

R. B. Singh (NCC/4731), 12th July, 1966.

G. R. Tripathi (NCC/4944) and A. A. Chisty (NCC/4932), 1st Oct., 1966.

R. N. Pathak (NCC/5011), 28th June, 1967.

Ghanshyam Singh (NCC/5085), 30th June, 1968.

P. L. Verma (NCC/5112), Gajraj Singh (NCC/5113), Y. P. Sinha (NCC/5114), J. C. Garg (NCC/5115), N. K. Choudhary (NCC/5109), A. S. Rawat (NCC/5102) and B. B. Singh (NCC/5106), 30th Aug., 1968.

Haryana

K. K. Puri (NCC/6253), 28th Mar., 1968.

Y. S. Yadav (NCC/6278), 30th June, 1968.

Gursharan Singh (NCC/6232), 7th Dec., 1967.

R. K. Sharma (NCC/6234), 7th Dec., 1966.

R. S. Azad (NCC/6236), 30th Dec., 1966.

K. K. Kapur (NCC/6250), 26th Oct., 1966.

Chandigarh

B. S. Sidhu (NCC/6340), 16th Feb., 1968.

Assam

Bimal Nag (NCC/6600), 22nd Aug., 1967.

R. G. Chowdhury (NCC/6913), 25th Aug., 1968.

H. N. Deka (NCC/6676), H. K. Sarma (NCC/6682), G. C. Das (NCC/6674), G. N. Dutta (NCC/6672), S. K. Varma (NCC/6675), J. J. Sarkar (NCC/6680) and M. C. Dutta (NCC/6679), 7th Dec., 1967.

A. B. Sen Gupta (NCC/6728), 1st April, 1968.

B. C. Salkia (NCC/6686), 28th Mar. 1968.

Mysore

K. M. Koti (NCC/7385), 30th Aug., 1968.

R. N. Kidiyoor (NCC/7167), 16h June, 1966.

S. G. Pratabkhal (NCC/7243), 5th Aug., 1968.

Andhra Pradesh

Bolla Dayasagar (NCC/8760), 17th July, 1968.

T. A. Ramaiah (NCC/8710), 30th Aug., 1968.

Orissa

S. A. Ali (NCC/8956) and B. S. Mohapatra (NCC/8960), 30th Dec., 1967.

Rajasthan

R. C. Jain (NCC/9416), G. L. Agrawal (NCC/9419), Gauri Shankar (NCC/9418) and S. N. S. Rajawat (NCC/9421), 24th Aug., 1967.

U. S. Rathore (NCC/9348), 7th Dec., 1967.
 M. P. Agrawal (NCC/9354), 1st July, 1968.
 K. S. Chauhan (NCC/9355), 11th July, 1968.

Gujarat

K. J. Pandya (NCC/10092), 23rd July, 1968.
 R. S. Bhatt (NCC/9966), B. D. Kawalramani (NCC/9968) and K. S. Patel (NCC/9963), 30th June, 1968.

Jammu & Kashmir

Motilal Handu (NCC/10267), 28th June, 1967.
 B. L. Bhardwaj (NCC/10246), 3rd Jan., 1968.

Senior Division (Air Wing)

Plt. Offr. to be Flg. Offr.

Chandigarh

P. N. Manocha (NCCA/6225), 5th July, 1967.

Flg. Offr. to be Flt. Lt.

Jammu & Kashmir

J. R. Rathore (NCCA/10222), 17th July, 1968.

Girls Division (Junior Wing)

Madras

Third Officer to be Second Officer

Mrs. MONICA AMBROSE (NCCJ/GD/11023), 3rd Oct., 1963.

Second Officer to be First Officer

Miss MANICKAM RAJAMANI (NCCJ/GD/11005), 1st Aug. 1963.

Miss M. MEENA (NCCJ/GD/11017), Mrs. SARAH ALFRED (NCCJ/GD/11019), Mrs. M. SUSILA (NCCJ/GD/11020), Miss T. R. RAJALAKSHMI (NCCJ/GD/11022) and Mrs. MONICA AMBROSE (NCCJ/GD/11023), 3rd Oct., 1968.

West Bengal

Second Officer to be First Officer

Miss MANU RANI SINHA (NCCJ/GD/13012), 3rd Oct., 1968.

Punjab

Third Officer to be Second Officer

Miss DAVINDER KAUR KALER (NCCJ/GD/16023), Mrs. VIMLA KASHYAP (NCCJ/GD/16025) and Miss UMA RANI (NCCJ/GD/16028), 11th June, 1968.

Haryana

Third Officer to be Second Officer

Mrs. RADHA RANI AGGARWAL (NCCJ/GD/16029), 11th June, 1968.

Chandigarh

Third Officer to be Second Officer

Mrs. KAMLA MALHAN (NCCJ/GD/16024), 11th June, 1968.

Kerala

Second Officer to be First Officer

Miss T. K. VIMLA (NCCJ/GD/19012), 3rd Oct., 1968.

Rajasthan

Third Officer to be Second Officer

Mrs. B. PANDIYAR (NCCJ/GD/21037), 11th Aug., 1968.

Miss BHAJANJEET KAUR (NCCJ/GD/21050), 15th July, 1968.

Gujarat

Second Officer to be First Officer

Miss V. R. PARMAR (NCCJ/GD/22004), 3rd Oct., 1968.

No. 3247, dated 9th Dec. 1968.—The President is pleased to accept the resignation of the following lady officers from the NCC w.e.f. 12 Nov., 1968. The period shown in brackets against their names shall not be counted for seniority or promotion or any other benefits in the National Cadet Corps.

Girls Division (Senior Wing)

Madhya Pradesh

2/Lt. Miss RAJANI ZOKARKAR NCC/GD/5722, (9-1-1968 to 11-11-1968).

Uttar Pradesh

Lt. Miss SUSHILA DEVI JAIN NCC/GD/6505, (8-8-1968 to 11-11-1968).

Lt. Miss SURJEET KAUR AHUJA NCC/GD/6533, (1-9-1968 to 11-11-1968).

Assam

2/Lt. Mrs. AMITA BHATACHARJEE NCC/GD/7320, (13-9-1968 to 11-11-1968).

Kerala

Lt. Mrs. ANNA ZACHARIAS AIKARA NCC/GD/7811, (13-7-1967 to 11-11-1968).

Andhra Pradesh

Lt. Mrs. K. RUTH FREDERICK (nee Miss RUTH JOHN) NCC/GD/8015, (1-9-1968 to 11-11-1968).

Lt. Mrs. T. A. PADMALATHA (nee Miss AGNES PADMALATHA) NCC/GD/8029, (2-7-1968 to 11-11-1968).

2/Lt. Miss JHAN ARA BEGUM NCC/GD/8053, (26-5-1968 to 11-11-1968).

No. 3248, dated 9th Dec. 1968.—The President is pleased to discharge the following lady officers from the NCC w.e.f. 12 Nov., 1968. The period shown in brackets against their names shall not be counted for the purpose of seniority or promotion or any other benefits in the National Cadet Corps.

Girls Division (Senior Wing)

Maharashtra

Lt. Mrs. SINDHU NAVALEKAR NCC/DG/5032, (14-7-1968 to 11-11-1968).

Madras

Lt. Mrs. SOUNDRAVALI LIONEEL NCC/GD/5409, (1-6-1968 to 11-11-1968).

West Bengal

2/Lt. Miss KALYANI SAMADDER NCC/GD/6038, (1-6-1968 to 11-11-1968).

Uttar Pradesh

Lt. Miss KRISHNA KUMARI NCC/GD/6532, (1-8-1968 to 11-11-1968).

2/Lt. Miss BIMAL KUMARI LALL NCC/GD/6639, (12-7-1968 to 11-11-1968).

Punjab

2/Lt. Miss VIMLA CHHABRA NCC/GD/7057, (10-7-1968 to 11-11-1968).

2/Lt. Miss ASHA TALWAR NCC/GD/7070, (18-9-1967 to 11-11-1968).

2/Lt. Miss HARBHAJAN MANN NCC/GD/7077, (7-8-1968 to 11-11-1968).

2/Lt. Miss NIRMAL THAKUR NCC/GD/7087, (1-3-1968 to 11-11-1968).

Gujarat

Lt. Mrs. J. N. MEHTA NCC/GD/8726, (15-6-1968 to 11-11-1968).

No. 3249, dated 7th Dec. 1968.—The President is pleased to discharge the following officers from the National Cadet Corps with effect from 7th December, 1968. The period shown in brackets against their names shall not be counted for the purposes of seniority or promotion or any other benefits in the NCC :—

Junior Division (Army Wing)

Maharashtra

S/O K. V. Tipnis (NCCJ/81191), (14th Sep. 1967 to 6th Dec. 1968).

T/O G. B. Chinchmalatpure (NCCJ/81373), (1st Aug. 1968 to 6th Dec. 1968).

T/O B. K. Kapadi (NCCJ/81095), (13th Aug. 1966 to 6th Dec. 1968).

Madras

F/O A. David Gandha Raj (NCCJ/9247), (16th Apr. 1968 to 6th Dec. 1968).

F/O A. J. Pukianathan (NCCJ/51247), (15th May, 1968 to 6th Dec., 1968).

F/O A. David Raj (NCCJ/9346), (16th June, 1967 to 6th Dec., 1968).

F/O S. Kasirajan (NCCJ/9456), (31st July, 1967 to 6th Dec., 1968).

S/O A. Murugesan (NCCJ/51031), (16th May, 1967 to 6th Dec., 1968).

S/O C. Chinniah (NCCJ/51170), (12th June, 1967 to 6th Dec., 1968).

S/O Valoyutha Mudaliar Rajaganapathy (NCCJ/51122), (30th Aug. 1968 to 6th Dec., 1968).

S/O P. Balaraman (NCCJ/51202), (20th July, 1968 to 6th Dec., 1968).

S/O Chinnusamy Kandaswami (NCCJ/51155), (28th June, 1968 to 6th Dec., 1968).

S/O Nataraja Chettiar Ratnasabapathy (NCCJ/51017), (8th June, 1965 to 6th Dec., 1968).

T/O Navamony Kusela Prasad (NCCJ/51526), (2nd Aug. 1968 to 6th Dec., 1968).

T/O Thirupathy Gounder Vallikannam (NCCJ/51324), (1st Aug. 1967 to 6th Dec., 1968).

T/O M. Karuppannan (NCCJ/51292), (26th June, 1967 to 6th Dec., 1968).

Madhya Pradesh

T/O P. L. Ganguli (NCCJ/5599), (1st July, 1968 to 6th Dec., 1968).

T/O G. R. Waghe (NCCJ/5560), (16th July, 1968 to 6th Dec., 1968).

Uttar Pradesh

C/O M. C. Wood (NCCJ/12149), (7th June, 1968 to 6th Dec., 1968).

C/O J. C. Prasad (NCCJ/12117), (17th July, 1968 to 6th Dec., 1968).

C/O Mohan Ram Singh (NCCJ/12125), (2nd Oct. 1968 to 6th Dec., 1968).

Delhi

T/O A. N. Sharma (NCCJ/7808), (24th June 1968 to 6th Dec., 1968).

Punjab

F/O Uttam Chand (NCCJ/7339), (1st June. 1968 to 6th Dec., 1968).

S/O Nachhattar Singh (NCCJ/7767), (11th June. 1968 to 6th Dec. 1968).

T/O Joginder Singh (NCCJ/7974), (3rd Aug. 1968 to 6th Dec., 1968).

T/O Joginder Singh (NCCJ/7818), (26th May. 1968 to 6th Dec., 1968).

T/O A. N. Kaushal (NCCJ/7960), (2nd June, 1968 to 6th Dec., 1968).

T/O Bakhtawar Singh (NCCJ/8003), (4th Aug. 1968 to 6th Dec., 1968).

Haryana

C/O Prabhu Ram (NCCJ/7086), (10th Aug. 1967 to 6th Dec., 1968).

S/O M. K. Saksena (NCCJ/7678), (14th May, 1968 to 6th Dec., 1968).

Mysore

F/O G. V. Varadarajan (NCCJ/23005), (1st Sep. 1964 to 6th Dec., 1968).

S/O S. Vijayan (NCCJ/23172), (1st May, 1968 to 6th Dec., 1968).

T/O Abdul Gaffar (NCCJ/23200), (1st May, 1968 to 6th Dec. 1968).

T/O M. R. Hallur (NCCJ/23278), (11th July, 1968 to 6th Dec., 1968).

Kerala

S/O M. E. Bhaskaran (NCCJ/25211), (1st June, 1968 to 6th Dec., 1968).

S/O K. A. Krishna Kumar (NCCJ/25158), (30th Aug., 1968 to 6th Dec., 1968).

T/O V. V. Ramanathan (NCCJ/25399), (1st Apr. 1967 to 6th Dec., 1968).

Andhra Pradesh

F/O K. S. R. K. Murthy (NCCJ/9333), (1st Aug., 1968 to 6th Dec., 1968).

T/O T. Maria Dasu (NCCJ/41241), (1st June. 1968 to 6th Dec., 1968).

T/O G. Venkateswara Rao (NCCJ/41396), (17th Aug. 1968 to 6th Dec., 1968).

Orissa

T/O K. C. Nayak (NCCJ/61320), (30th Apr. 1968 to 6th Dec., 1968).

Rajasthan

T/O Sahab Singh (NCCJ/31143), (27th Aug., 1968 to 6th Dec., 1968).

T/O Dau Lal Joshi (NCCJ/31319), (18th July, 1968 to 6th Dec., 1968).

F/O Mali Ram Varma (NCCJ/25019), (16th Aug., 1967 to 6th Dec., 1968).

F/O Bankat Lal Sharma (NCCJ/26080), 23rd Aug., 1967 to 6th Dec., 1968).

S/O Amar Chand Jat (NCCJ/31091), (1st July, 1967 to 6th Dec., 1968).

S/O R. C. Gupta (NCCJ/31092), (12th Sep., 1966 to 6th Dec., 1968).

S/O J. P. Sharma (NCCJ/31142), (11th Aug., 1967 to 6th Dec., 1968).

S/O S. S. Mehta (NCCJ/31180), (16th Sep., 1967 to 6th Dec., 1968).

T/O T. K. Kushwaha (NCCJ/31192), (5th July, 1967 to 6th Dec., 1968).

T/O V. D. Acharya (NCCJ/31306), (24th July. 1967 to 6th Dec., 1968).

T/O K. P. Sharma (NCCJ/31200), (21st Aug. 1967 to 6th Dec., 1968).

T/O S. N. Sharma (NCCJ/31238), (17th Sep., 1967 to 6th Dec., 1968).

T/O Bagher Singh Maan (NCCJ/31304), 6th Aug., 1967 to 6th Dec., 1968).

Gujarat

T/O A. G. Gondalia (NCCJ/35218), (17th June, 1968 to 6th Dec., 1968).

T/O C. R. Shukla (NCCJ/35297), (23rd Nov., 1967 to 6th Dec., 1968).

Junior Division (Naval Wing)

Rajasthan

S/O R. K. Joshi (NCCJN/31001), (1st Nov. 1966 to 6th Dec., 1968).

Junior Division (Air Wing)

Madras

F/O A. V. Subbarao (NCCJA/9489), (19th June, 1967 to 6th Dec., 1968).

V. FERRAO, Dir. of Pers.

DIRECTORATE OF PUBLIC RELATIONS

No. 3250, dated 10th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following appointment:—

Shri JAGIR CHAND SHARMA, to be temporary Assistant Public Relations Officer on an *ad hoc* basis for a period of 12 months or till availability of a nominee of the UPSC, whichever is earlier, November 4, 1968.

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

No. 3251, dated 16th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following appointments:—

ARMY HEADQUARTERS

To be Convener Technical Team, M.G.O. Branch

Brig. S. S. Brar IC 1419, A.O.C., 8th Nov. 1968.

To be Brig. Tech. Stores, M.G.O. Branch

Col. (A/Brig.) L. F. A. King IC 3019, A.O.C., 8th Nov. 1968.

To be Dir. Designs, E-in-C's Branch

Brig. R. L. Anand IC 1318 Engineers, 25th Nov. 1968.

To be Dir. Sigs., Int., G.S. Branch

Col. (A/Brig.) J. S. Kalra IC 1432, Signals, 27th Nov. 1968.

No. 3251, (a), dated 7th Dec. 1968.—The President is pleased to appoint the undermentioned as Colonel of 68 ARMOURED, Regiment with effect from 15th November, 1968:—

Lt.-Col. (A/Brig.) SALIM CALEB, IC 881, M.V.C.

G. SEN, Dy. Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 3252 dated 11th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned officers of the 21st Technical Graduates Course who were granted Permanent Commission from 15th June 1966 under A.I.s 105/61, and 77/66, are granted two years ante-date of seniority for pay and promotion w.e.f. 15th June 1964 under A.I. 126/51, as amended by Corrigendum 67/59. By virtue of the ante-date granted they are promoted to the rank of Lt. w.e.f. 15th June, 1966:—

Rajendra Prasad MISHRA, (IC 17130), E.M.E., SURINDRA LALL, (IC 17132), Engineers with seniority next below

Lt. G. Mohanan (IC 17129), E.M.E. and Neelamkavil Devassy JOY, (IC 17165), Engineers with seniority next below Lt. A. K. Sabharwal (IC 17164), E.M.E.

The undermentioned is granted Permt. Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 16th Dec. 1967 under the provisions of A.I. 4/S/67. He is also granted two years ante-date of seniority for pay and promotion from 26th Dec. 1965 under A.I. 4/S/67, and is promoted to the rank of Lt. w.e.f. 26th Dec. 1967:—

Tej Bahadur ALLAHABADI, (IC 19347), E.M.E., with seniority next below Lt. Surindar Singh (IC 19346), E.M.E., whose name appears in M. of D. Notn. No. 1196, dated 8th May 1968 published in the Gazette of INDIA, dated 25th May 1968.

No. 3253, dated 11th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following appointments under A.I. 13/S/65:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Emergency Commissioned Officers are granted Permanent Commission with effect from 1st June 68 in the rank of 2/Lt. with seniority for promotion from 29th Apr. 65 but for increments of pay from 13th Oct. 63 under A.I. 13/S/65, and relinquish their Emergency Commission from 1st June 68. By virtue of their seniority, they are promoted to the rank of Lt. with effect from 1st June 68 with seniority in that rank from 29th Apr. 1967:—

Parshotam Lal Gupta (EC 53806 now IC 20430), E.M.E., Ramakrishnan Chandrasekaran (EC 53811 now IC 20433), Arty., Fairweather Myliemngap (EC 53812 now IC 20434), Inf., Amar Singh Nanda (EC 53813 now IC 20435), Inf., Ram Sarup (EC 53817 now IC 20436), A.S.C., Nareish Bhagwant Karkhanis (EC 53818 now IC 20437), Inf., Yoel Kumar (EC 53823 now IC 20439), Inf., Gurdial Singh Takhar (EC 53827 now IC 20440), E.M.E., Phani Bhushan Chatterjee (EC 53828 now IC 20441), E.M.E., Satwant Singh Thind (EC 53832 now IC 20442), Arty., Vinod Kapur (EC 53837 now IC 20444), Arty., Kashmir Singh (EC 53848 now IC 20448), Inf., Narayanaswamy Subramanian (EC 53853 now IC 20450), Arty., Sabya Sachi Bagchi (EC 53856 now IC 20452), Inf., Tilak Raj Madiratta (EC 53865 now IC 20455), Inf., Prem Paul Anand (EC 53866 now IC 20455), Inf., Sant Kumar Bhimwal (EC 53871 now IC 20459), Engrs., Gurcharan Singh Dubb (EC 53877 now IC 20460), Arty., Jaspantap S. Bath (EC 53893 now IC 20464), Inf., Surjit Singh (EC 53895 now IC 20465), Arty., Arjun Dev Batra (EC 53897 now IC 20466), Arty., Harish Chander Huria (EC 53901 now IC 20467), A.S.C., Rachhpal Singh (EC 53902 now IC 20468), Arty., Jagmail Singh Sandhu (EC 53905 now IC 20469), Arty., Mohindra Kumar Nangia (EC 53921 now IC 20471), Engrs., Shiv Raj Singh Raghav (EC 53929 now IC 20472), Inf., Kaliaanda Bopaiah Uthapa (EC 53931 now IC 20473), Arty., Shri Ram Yadav (EC 53933 now IC 20474), Inf., Rabindra Nath Sen Gupta (EC 53939 now IC 20475), Arty., Mukhban Singh (EC 53940 now IC 20476), E.M.E., Arjan Singh Kohli (EC 53941 now IC 20477), Inf., Kalaan Narinder Kumar Singh (EC 53943 now IC 20478), Armd. Corp., Prithvi Paul Singh Grewal (EC 53945 now IC 20479), Arty., Ramesh Kumar Jagota (EC 53949 now IC 20480), Inf., Sharad Vishwanath Joshi (EC 53951 now IC 20481), Inf., Ram Bir Singh Sirohi (EC 53956 now IC 20484), Inf., Indrasan Pandey (EC 53964 now IC 20486), Arty., Kundan Singh (EC 53965 now IC 20487), E.M.E., Mahindar Kumar Mandiyal (EC 53966 now IC 20488), Arty., Raj Mal Jain (EC 53969 now IC 20489), Inf., Inder Singh Sethi (EC 53976 now IC 20491), Inf., Salish Chandra Verma (EC 53982 now IC 20493), A.E.C., Purshotam Lal Sharma (EC 53983 now IC 20494), Inf., Risal Singh (EC 53994 now IC 20497), Inf., Harcharan Singh (EC 54008 now IC 20500), A.S.C., Samuel Prakash Sal Omon Jonathan (EC 54010 now IC 20502), A.S.C., Ved Prakash Sharma (EC 54012 now IC 20504), Inf., Rajinder Singh Mangat (EC 54028 now IC 20507), Arty., Krishna Deo Tiwari (EC 54037 now IC 20508), A.E.C., Elat Parambil Mohamed Abdul Rehman (EC 54053 now IC 20512), A.S.C., Sandur Vyasarachar Narasinha Murthy (EC 54055 now IC 20513), Inf., Rajindar Nath Dogra (EC 54069 now IC 20517), A.S.C.

No. 3254, dated 11th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following appointment :—

REGULAR ARMY
Permanent Commission
To be 2/Lt.

Harbinder Singh MANN, IC 19525, Inf., 10th Jul. 1968.

No. 3255, dated 29th Nov. 1968.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY
Short Service Commission

The undermentioned are granted Short Service Commission on probn. for a period of FOUR Years in the rank of 2/Lt. under the provisions of A.I. 10/S/65, read with M. of D. letter No. 35426/CSL-4/MS3D/2658/D(MS), dated 30th Aug. 1968 w.e.f. the dates shown against their names and on successful completion of training their Short Service Commission on probn. is confirmed from 1st Jan. 1967. They are also granted 2 years ante-date of seniority for pay and promotion from 1st Jan. 1965 under A.Is. 10/S/65, and 126/51, as amended by Corrigendum No. 67/59, and are promoted to the rank of Lt. w.e.f. 1st Jan. 1967 :—

Om Parkash GANDHI, (SS 19181), E.M.E., with seniority next below Dinesh Chandra AGRAWAL, (SS 19186), E.M.E., and Datla Suryanarayana RAJU, (SS 19212), E.M.E., with seniority next below Dina Nath BHATIA, (SS 19229), Engineers—26th Sep. 1966.

The undermentioned are granted Short Service Commission on probn. for a period of 4 years in the rank of 2/Lt. under the provisions of A.I. 10/S/65, w.e.f. the dates shown against their names and on successful completion of training their Short Service Commission on probn. is confirmed from 1st Jan. 1967. They are also granted 2 years ante-date of seniority for pay and promotion from 1st Jan. 1965 under A.Is. 10/S/65, and 126/51, as amended by Corrigenda Nos. 67/59, and 26/61, and are promoted to the rank of Lt. w.e.f. 1st Jan. 1967 :—

M. MURALEEDHARAN, (SS 19189), E.M.E., with seniority next below Vishwanath CHAUDHARY, (SS 19208), Engineers, Maniyalath PREMANADHAN, (SS 19188), E.M.E., with seniority next below Dipankar CHATTO-PADHYAY, (SS 19235), Engineers and A. V. KRISHNA-NUNNI NAIR, (SS 19223), E.M.E., with seniority next below Deo Narain SAHU, (SS 19218), Engineers, 26th Sep. 1966.

No. 3256, dated 29th Nov. 1968.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish S.S.C. on probn. in the rank of 2/Lt. in the A.M.C., consequent on his simultaneous appointment to S.S.C. in the A.M.C., under A.I. 208/59, as modified by Min. of Def. letter No. 17100/DGAFMS/DG-1(X)/6910/V/D(Med.), dated 31st Dec. 1965 for a period of five years w.e.f. 13th May 1968 as follows :—

REGULAR ARMY
Short Service Commission
To be Lt. (on probn.)

Nautej SINGH, M.B., B.S., (MS-7953), A.M.C.
Amar Satinder Singh SEKHON, M.B., B.S., MS-7954, A.M.C.

No. 3257, dated 29th Nov. 1968.—The President is pleased to make the following appointments in the A.M.C., under A.I. 9/S/63, as amended :—

REGULAR ARMY
Short Service Commission on probation
To be 2/Lt.

Amar Satinder Singh SEKHON, A.M.C., 20th June 1967.
Nautej SINGH, A.M.C., 20th June 1967.

No. 3258, dated 29th Nov. 1968.—The President is pleased to make the following appointments with an ante-date for seniority for pay and promotion from the date shown against their names under the provisions of A.I. 222/57, read with Min. of Def. letter No. 15158/DGAFMS/MNS/1638/S/D (Med.), dated 31st Dec. 1966 :—

REGULAR ARMY
Military Nursing Service (Temp.)
To be Lieuts.

Miss Emo Rose MINZ, NS-12893, 2nd Oct. 1961 with seniority from 2nd Oct. 1959. Arrears of pay on account of ante-date will be admissible w.e.f. 31st Dec. 1966.

Min. of Def. Notification No. 2542, dated 24th Oct. 1962 published in the Gazette of India dated 10-11-1962 under the heading "Regular Army", sub-heading "Military Nursing Service (Temporary)" in so far as it relates to this Nursing Officer is hereby cancelled.

Miss Savinder Kaur, RANDHAWA, (NS-12965), 15th Mar. 1962 with seniority from 15th Mar. 1961. Arrears of pay on account of ante-date will be admissible w.e.f. 31st Dec. 1966.

Min. of Def. Notification No. 388, dated 7th Feb. 1963 published in the Gazette of India dated 16th Feb. 1963 under the heading "Regular Army", sub-heading "Military Nursing Service (Temporary)" in so far as it relates to this Nursing Officer is hereby cancelled.

Miss Samuel CHANDRA, NS-13016, 13th Oct., 1962 with seniority from 13th Oct. 1960. Arrears of pay on account of the ante-date will be admissible w.e.f. 31 Dec. 1966.

Min. of Def. Notification No. 23 dated 18-12-1963 published in the Gazette of India dated 4-1-1964 under the heading "Regular Army", sub-heading "Military Nursing Service (Temporary)" in so far as it relates to this Nursing Officer is hereby cancelled.

Miss Aleyamma JOSEPH VATHALLOOR NS-13732, 12th Jul. 1965 with seniority from 12th Jul. 1964. Arrears of pay on account of ante-date will be admissible w.e.f. 31 Dec. 1966.

Min. of Def. Notification No. 3114 dated 2-12-65 published in the Gazette of India dated 18-12-65 under the heading "Regular Army", sub-heading "Military Nursing Service (Temporary)" in so far as it relates to this Nursing Officer is hereby cancelled.

Miss Mariamma Verliparumbil, KURIAKOSE NS-13749 28th Sep. 1965 with seniority from 28th Sep. 1964. Arrears of pay on account of ante-date will be admissible w.e.f. 31 Dec. 1966.

Min. of Def. Notification No. 2829 dated 15-10-66 published in the Gazette of India 5-11-66 under the heading "Regular Army", sub-heading "Military Nursing Service (Temporary)" in so far as it relates to this Nursing Officer is hereby cancelled.

No. 3259, dated 21st Nov. 1968.—The President is pleased to make the following appointment with an ante-date for seniority for pay and promotion from the date shown against her name under the provisions of AI 14/S/62 read with Min. of Def. letters No. 12238/DGAFMS/MNS/460/S/D(Med.) dated 16 Apr. 63 and No. 15158/DGAFMS/MNS/1638/S/D(Med.) dated 31 Dec. 1966 :—

REGULAR ARMY
Military Nursing Service (Temp.)
To be Lieuts.

Miss Mannimall Rugmanl, KUTTY NS-13114 14th Feb. 1963. Her seniority will reckon from 14th Feb. 1962 and from 14th Feb. 61 w.e.f. 31st Dec. 1966.

Min. of Def. Notification No. 428 dated 6-2-1964 published in the Gazette of India dated 22-2-64 under the heading "Regular Army", sub-heading "Military Nursing Service (Temporary)" in so far as it relates to this Nursing Officer is hereby cancelled.

Miss Lilynis, LYNDOH NS-13284, 30th Apr. 1963 with seniority from 30th Apr. 1961. Arrears of pay on account of ante-date will be admissible w.e.f. 31 Dec. 1966.

Min. of Def. Notification No. 1009 dated 9-4-1965 published in the Gazette of India dated 1-5-1965 under the heading "Regular Army", sub-heading "Military Nursing Service (Temporary)" in so far as it relates to this Nursing Officer is hereby cancelled.

Miss Rama Chandra, MANGALAM NS-13307, 14th May 1963. Her seniority will reckon from 14th May 62 and from 14th May 1961 w.e.f. 31st Dec. 1966.

Min. of Def. Notification No. 3059 dated 25-11-1965 published in the Gazette of India dated 11-12-65 under the heading "Regular Army", sub-heading "Military Nursing Service (Temporary)" in so far as it relates to this Nursing Officer is hereby cancelled.

Miss Kuppuswami, VALLI NS-13332, 28th May 1963 with seniority from 28th May 62. W.e.f. 31 Dec. 66, her seniority will reckon from 28th May 61.

Min. of Def. Notification No. 1078 dated 24-4-65 published in the Gazette of India dated 8-5-65 under the heading "Regular Army", sub-heading "Military Nursing Service (Temporary)" in so far as it relates to this Nursing Officer is hereby cancelled.

Miss Rachel VARGHESE NS-13593, 30th May 1964. Her seniority will reckon from 30th May 63 and from 30th May 62 w.e.f. 31 Dec. 66.

Min. of Def. Notification No. 3115 dated 1-12-65 published in the Gazette of India dated 18-12-65 under the heading "Regular Army", sub-heading "Military Nursing Service (Temporary)" in so far as it relates to this Nursing Officer is hereby cancelled.

Miss Dorothy Violet, LALL NS-13790, 14th Oct. 1965. Her seniority will reckon from 14th Oct. 1964 and from 14th Oct. 1963 w.e.f. 31st Dec. 1966.

Min. of Def. Notification 1137 dated 18-4-66 published in the Gazette of India dated 30-4-66 under the heading "Regular Army", sub-heading "Military Nursing Service (Temporary)", in so far as it relates to this Nursing Officer is hereby cancelled.

Miss Balasubramania Desikar, DHARMAMBAL NS-13805, 29th Oct. 1965 with seniority from 29th Oct. 64. Arrears of pay on account of ante-date will be admissible w.e.f. 31 Dec. 1966.

Min. of Def. Notification No. 3092 dated 17-11-66 published in the Gazette of India dated 10-12-66 under the heading "Regular Army", sub-heading "Military Nursing Service (Temporary)" in so far as it relates to this Nursing Officer is hereby cancelled.

Miss Sudha Gajanan, DEODHAR NS-14005, 23rd Jan. 1966 with seniority from 23rd Jan. 65. Arrears of pay on account of ante-date will be admissible w.e.f. 31 Dec. 1966.

Min. of Def. Notification No. 3092 dated 17-11-66 published in the Gazette of India dated 10-12-66 under the heading "Regular Army", sub-heading "Military Nursing Service (Temporary)" in so far as it relates to this Nursing Officer is hereby cancelled.

No. 3260, dated 29th Nov. 1968.—The President is pleased to make the following appointment under AI 222/57 :—

REGULAR ARMY

Military Nursing Service (Temp.)

To be Lieuts.

Miss Kunjupanickan, CHELLAMMA NS-14362, 18th Jan. 1968.

Miss Mary Marcel, VICTOR NS-14366, 1st Feb. 1968.

No. 3261, dated 29th Nov. 1968.—The President is pleased to permit the undermentioned Nursing Officers to relinquish their temporary commission in the Military Nursing Service w.e.f. 10 Jan. 68 and to the grant of permanent commission

from the same date with seniority for pay and promotion from the date shown against their names *vide* AI 274/50 :—

REGULAR ARMY

Military Nursing Service

To be Lieut.—on probn.

Miss Aleyamma Sara, JOHN NS-13379, 17th Jun. 1963.

Miss Kusum Bal, BAJAJ NS-13592, 29th May 1964.

Miss Annamma Puthanparampil, THOMAS NS-13803, 29th Oct. 1965.

No. 3262, dated 29th Nov. 1968.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 3 years under AI 115/61 as amended :—

REGULAR ARMY

Army Dental Corps

Short Service Commission

To be Lieut on probn.

Avadh Behari Lal TANDAN, BSC, BDS(Lkw.) (DS 11270)-25 Apr. 66 with seniority for pay and promotion from 10 January 1966 (includes 3½ months ante-date for Hospital Appointment which will not count for Gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notn. 2281 dated 29th August 1966 published in the Gazette dated 10 September 1966 in so far as it relates to this officer is hereby cancelled.

No. 3263, dated 7th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following appointment :—

REGULAR ARMY

Special List

The Maratha Li

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Babu Bankar JC-50871, 21st Sep. 1968.

F. M. VIRJEE, Under Secy.

No. 3264, dated 9th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following appointment :—

REGULAR ARMY

Special List

Army Service Corps

(Mechanical Transport)

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Tika Ram Sharma, JC-50705, 30th Jan. 1968.

C. V. NARAYANAN, Under Secy.

No. 3265, dated 11th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following appointment :—

College of Military Engineering

Shri Pandurang Vaman Pawar to be tempy Professor in Applied Mechanics until further orders w.e.f. 12th Nov. 1968 F.N. The officer will be on prob. for two years.

No. 3266, dated 11th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following appointments :—

Military Engineer Services

Shri S. S. Sachdev, perm. Supdt. B/R Grade I and Offg. E.E. appointed to be incharge of the full duties of S.E., C.W.E. Ferozepore in addition to his own from 17 Jun. 1968 to 16 Sep. 1968 A.N.

Shri R. C. Dhingra, perm. P.A. and temp. Supdt. Cl. appointed to be incharge of the current duties of A.O. Grade II in the office of C.W.E. Chandigarh independently from

11 May 1968 to 18 Jun. 1968 (inclusive) and relieved the charge of his own duties of Supdt. Cl.

Shri H. G. Nayak, quasi-permt. S.A. Grade II and temp. A.S.W., appointed to carry out the full duties of S.W. (C.W.E. Bombay) in addition to his own from 17 Aug. 1968 to 28 Oct. 1968 (inclusive).

No. 3267, dated 13th Dec. 1968.—The President is pleased to appoint the following EEs as Offg SEs until further orders :—

(Military Engineer Services)

MES-8463312 Shri TR MAGGU, Permt. AEE E/M and Temp. EE 9 Sep. 68 F.N.

MES-9116 Shri S. K. BOSE, Permt. Supdt. E/M Gde 1, Offg. EE 2 Sep. 68 F.N.

MES-300060 Shri T. C. THADANI, Permt. AEE E/M and Temp. EE 5 Sep. 68 F.N.

MES-8458150 Shri J. M. DFORE, Permt. AEE B/R, and Offg. EE 4 Oct. 68 F.N.

MES-105001 Shri P. C. JAIN, Permt. AEE B/R and Offg. EE 21 Nov. 68 F.N.

The officers will be on probation for two years.

No. 3268, dated 13th Dec. 1968.—The President is pleased to appoint the following existing Class III Civilian Assistant Security Officers to the upgraded Class II posts w.e.f. 17th Oct. 1968 :—

Shri K. P. SOVANI.

Shri NARINDER SINGH.

Shri KRISHAN MURARI.

Shri P. A. VARKEY.

Shri A. DORABJI.

Shri K. V. RAMACHANDRAN.

Shri K. P. NAIR.

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

No. 3269, dated 19th Nov. 1968.—The President is pleased to grant additional tenure to the under-mentioned officer in the rank of Brig (Air Cdre) as shown against his name :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Brig Air Cdre, M. M. SHRINAGESH AVSM, (MR-186) (1665), AMC, upto 1st Oct. 1969.

No. 3270, dated 19th Nov. 1968.—The President is pleased to grant additional tenure to the under-mentioned officer in the rank of Colonel as shown against their names :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Col. K. C. GANAPATHY, MC, (MR-215), AMC, upto 5th Oct. 1969.

Col. M. B. K. NAIR, MC, (MR-227), AMC, upto 5th Oct. 1970.

Col. G. V. CHAPHEKAR (MR-270), AMC, upto 11th Dec. 1969.

K. RAJAGOPALAN, Dy. Secy.

No. 3271, dated 13th Dec. 1968.—The services of the undermentioned Army officer are placed at the disposal of the Ministry of Home Affairs for employment as Commandant, 100th of 4th, 100th of 4th, 100th of 4th, with effect from 20th Oct. 1968 :—

Lt. Col. (A/Col.) G. S. Sangha (IC 2990), MVC.

G. SEN, Dy. Secy.

No. 3272, dated 7th Dec. 1968.—The President is pleased to confirm the undermentioned officer consequent on the completion of the probationary period :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Major P. Doraiswamy (MR-1519) A.M.C., 6th Sep. 1962

No. 3273, dated 7th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Maj. to be Lt. Col.

O. F. Deworsop MR-1356 4135, 2nd August 1968.

P. Doraiswamy MR-1519 A.M.C., 20th August 1964.

S. Das Gupta MR-1068 A.M.C., 14th Sept. 1968.

Maj. to be substantive Lt. Col. (by selection)

Ajit Singh (IC 8967), A.S.C., (but with seniority from 23rd July 1963 without effect on pay and pension) 10th Jan. 1967.

Ram Parkash Kapoor (IC 2594), A.E.C., (but with seniority from 4th Jan. 1965 without effect on pay and pension) 19th Apr. 1967.

B. V. Shivane IC 3813, Engrs.; 21st July 1967.

Maj. to be substantive Lt. Col. (Time-scale)

Rajendar Pal (IC 1503), Inf., 22nd Jan. 1968.

M. K. Advani (IC 8891), Inf., 29th Aug. 1968.

Dalip Singh (IC 2770), A.O.C., 16th Oct. 1968.

A. H. Singh (IC 3347), A.O.C., 16th Oct. 1968.

Capt. to be Maj.

N. K. Jhunjia, (MR-1374), A.M.C., 20th Sept. 1966.

M. M. Sampath, MR-1561, A.M.C., 10th April 1967.

T. M. B. Nambiar MR-1592, A.M.C., 5th May 1967.

T. K. Mohan MR-1830, A.M.C., 20th Sep. 1967.

Lt. to be Capt. (on probn.)

V. K. Malhotra (MR-2042) A.M.C., 22nd Jan. 1968

N. Tohan MR-2045, A.M.C., 22nd Jan. 1968.

K. V. Raghuram MR-2046 11521, 22nd Jan. 1968.

(Miss) S. L. Sood (MR-2047) A.M.C., 22nd Jan. 1968.

(Miss) A. Sewaram MR-2050 A.M.C., 22nd Jan. 1968.

B. Sadananda (MR-2051) A.M.C., 22nd Jan. 1968.

B. Chacko MR-2052 A.M.C., 22nd Jan. 1968.

H. K. Malhotra MR-2056 A.M.C., 22nd Jan. 1968.

B. Bhardwaj (MR-2057) A.M.C., 22nd Jan. 1968.

(Miss) N. Taneja MR-2058 A.M.C., 22nd Jan. 1968.

A. Kumar (MR-2059) A.M.C., 22nd Jan. 1968.

M. Bhattacharya (MR-2060) A.M.C., 22nd Jan. 1968.

J. S. Suri MR-2061 A.M.C., 22nd January 1968.

P. R. Pappu MR-2063 A.M.C., 22nd Jan. 1968.

R. Rai MR-2064 A.M.C., 22nd Jan. 1968.

M. I. Chawla MR-2068 A.M.C., 22nd Jan. 1968.

H. K. Kapoor MR-2069 A.M.C., 22nd Jan. 1968.

G. K. Batra MR-2070 A.M.C., 22nd Jan. 1968.

Permanent Commission

Lt. to be Capt.

S. Bagchee IC 11572, Engineers, 7th June 1965.

S. S. Sandhu IC 12049, Engineers, 12th June 1966.

*Permanent Commission (Special List)**Lts. to be Capts.*

L. G. Subramanian (SL 460), 15th May 1968.

Bhan Singh (SL 483), Vijay Prakash Singh (SL 485), K. L. Mujumdar (SL 487), Dhanpat Rai (SL 454) and Mohinder Singh (SL 465), 15th May 1968.

I. C. Kaushik (SL 474), D. K. Guha Roy (SL 478), Teja Singh (SL 480), Didar Singh (SL 482), K. K. Gopalan (SL 494), U. S. Gurung (SL 496), Ram Mehar (SL 497) and P. S. Bindra (SL 499), 22nd May 1968.

Mehar Chand (SL 505) and N. Vasudevan (SL 507), 1st July 1968.

Dalip Singh (SL 530), 17th July 1968.

2/Lt. to be Lt.

S. S. Dhillon IC 17108, Inf., 15th June 1968.

*(Emergency Commission)**Capt. to be Quasi-Subs. Maj.*

V. T. Deo, M-30404, A.M.C., 2nd Oct. 1968.

Capt. to be Quasi-Subs. Maj. (on probn.)

(Mrs) K. R. Godkhindi, M-30773 A.M.C., 22nd Nov. 1967.

P. R. Padmanabhan, M-30787, A.M.C., 4th May 1968.

L. K. G. Vimal, M-31042, A.M.C., 20th May 1968.

R. B. Singh M-30789, A.M.C., 14th June 1968.

K. M. Nithyanantham, (M-30801) (10044) A.M.C., 18th June 1968.

B. R. Rao M-30917, A.M.C., 5th Aug. 1968.

Lt. to be Capt.

D. R. SHAH, M-30855, A.M.C., 3rd May 1966.

(Min. of Def. Notn. No. 3269 dated 9th Dec. 1966 published in the Gazette of India dated 24th Dec. 1966 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

2/Lts to be Lts.

M. L. Bhatia EC 51668, E.M.E. and H. S. Phatra (EC 51711) INF, 27th Sep. 1965.

Jitendar Kumar (EC 56483), E.M.E., 9th Feb. 1966.

*Short Service Commission**Capt to be Quasi-Subs Maj.*

B. M. RAY, (MS-6617), A.M.C., 20th Dec. 1967.

2/Lts to be Lts.

S. K. Jetley (SS 18614), D. Mehra (SS 18896), G. P. S. Grewal (SS 18930), G. S. Bedi (SS 18936) and S. S. Ahlawat (SS 19006), Armoured Corps.

S. S. Kashab (SS 18769), J. S. Jai (SS 18771), J. P. S. Rana (SS 18772), A. K. Sharma (SS 18773), Virendra Singh (SS 18775), B. S. Grewal (SS 18777), P. C. Tiwari (SS 18778), M. A. Ephraim (SS 18780), B. S. Gurung (SS 18782) and S. C. Joshi (SS 18783), Inf.

S. S. Chowdhry (SS 18964), K. C. Marwah (SS 18965), S. K. Sharma (SS 18969), N. S. Verma (SS 18971), T. K. Datta (SS 18976), T. S. Bakshi (SS 18979), U. J. Roy (SS 18981), J. L. Machhain (SS 18983), R. K. Datta (SS 18985) and Hardev Singh (SS 18989), Inf.

G. S. Sandhu (SS 18640), T. C. B. Nair (SS 18686), O. C. Rajput (SS 18689), G. S. Kashyap (SS 18702), Vishamber Singh (SS 18722), S. S. Dhankhar (SS 18731), S. S. Toor (SS 18741), Karan Singh (SS 18758), G. S. S. Kaushik (SS 18770) and H. K. Reddy (SS 18784), A.S.C.

P. D. George (SS 18909), I. J. Gupta (SS 18910), R. Gupta (SS 18911), D. C. Sud (SS 18912), N. B. Saxena (SS 18913), M. G. Kadam (SS 18918), B. C. Katoch (SS 18923), Ravi Paul (SS 18924), K. V. S. Sodha (SS 18926), G. S. Shekhawat (SS 18928), S. Banerji (SS 18931), S. V. Rajopadhye (SS 18932), T. J. S. Modi (SS 18933), D. C. Kakran (SS 18938), B. P. Maithani (SS 18939) and K. C. Pant (SS 18940), Inf.

M. F. Fernandez (SS 18624), Jugal Kishore (SS 18676), A. W. Bhadrakmar (SS 18683), D. R. F. Philip (SS 18713), K. Raizada (SS 18726), V. D. Bhandari (SS 18743), K. C. Sharma (SS 18798), S. K. Talwar (SS 18803), G. N. Dube (SS 18806), P. R. Jose (SS 18855), S. K. Chauhan (SS 18880) and V. Ramalingam (SS 18907), A.O.C.

A. N. Saxena (SS 18816), Sakharaj Singh (SS 18848), B. J. Gadhvi (SS 18902), Bal Krishan (SS 18960), Amrik Singh (SS 18974), P. D. Kuriyal (SS 18977), S. K. Ghanwat (SS 18982) and Raghubar Dayal (SS 19014), A.S.C.

K. S. Sethi (SS 18874), Bhupinder Singh (SS 18877), R. K. Deveshvar (SS 18881), S. S. Reddy (SS 18883), J. S. Tomar (SS 18885), M. P. Sharma (SS 18886), S. K. Lamba (SS 18887), V. K. Khosla (SS 18888), G. S. Rathee (SS 18901), I. J. Bajaj (SS 18903), H. L. Manchanda (SS 18904), S. P. Singh (SS 18906), K. P. Dinakaran (SS 18908) and V. K. Malhotra (SS 18914), Inf.

Bijay Singh (SS 18709), V. K. Sarfore (SS 18750), Gajendra Singh (SS 18759), I. M. Kohli (SS 18844), R. L. Sharma (SS 18846), H. S. Dung (SS 18849), Ram Avtar Singh (SS 18850), S. L. Somayaji (SS 18853), K. K. Nagar (SS 18856), Varpal Singh (SS 18858), Suresh Dutta (SS 18863), J. S. Sidhu (SS 18864), S. S. Bhalla (SS 18867) and S. C. Nagle (SS 18871), Inf., 24th Apr. 1968.

*Military Nursing Service**Permt. Commission**Capt. to be Major*

Capt. (Miss) L. PHILLIPS NS-12165, 1st Apr. 1968.

No. 3274, dated 11th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following promotion:—

*REGULAR ARMY**Infantry**The Bihar Regt.**To be Nb. Sub. (Clerk)*

Hav. Clk. Emanuel Murnu, No. 4232751 now JC-50704, 14th Aug. 1968.

*Infantry**The Dogra Regt.**To be Nb. Sub.*

Hav. Sant Ram 3932596 now JC-50699, 9th July 1968.

Hav. Inder Singh 3940686 now JC-50700, 13th Sep. 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Sub. w.e.f. 13th Aug. 1968 without effect on pay and allowances.)

Hav. Mahal Chand No. 3933015 now JC-50698, 11th Oct. 1968.

To be Nb. Sub. (Clerks)

Hav. Clk. Kasturi Lal No. 3939236 now JC-50876, 19th Oct. 1968.

Hav. Clk. Harnam Singh Verma No. 3940020 now JC-50877, 15th Nov. 1968.

*Infantry**The Jat Regt.**To be Nb. Sub.*

Hav. Birendar Singh 3135912 now JC-50724, 8th Sep. 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 23rd July 1968 without effect on pay and allowances.)

Hav. Bani Singh 3133498 now JC-50718, 29th Sep. 1968.

Hav. Bani Singh 3138514 now JC-50701, 14th Oct. 1968.

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Murari Lal 2633560 now JC-50753, 15th Oct. 1968.

*Infantry**The Kumaon Regt.**To be Nb. Sub.*

CQMH Bajrang Singh No. 4142775 now JC-50766, 1st Apr. 1968.

Hav. Man Singh No. 4140671 now JC-50722, 23rd Sep. 1968.

Hav. Daulat Chand No. 4139009 now JC-50703, 25th Oct. 1968.

*Infantry**The Mahar Regt.**To be Nb. Sub.*

Hav. Ramchandra Shelke No. 4533822 now JC-50710, 12th May 1968.

Hav. Rajaram Munjare No. 4534040 now JC-50711, 1st July 1968.

Hav. Bhimrao Kasbe No. 4534549 now JC-50712, 10th Aug. 1968.

Hav. Labh Singh No. 9310308 now JC-50713, 13th Sep. 1968.

Hav. Phuman Singh No. 9309523 now JC-50714, 13th Oct. 1968.

Hav. Hakam Singh No. 9309491 now JC-50715, 16th Oct. 1968.

Hav. Babu Ram No. 9200036 now JC-50716, 19th Oct. 1968.

*Infantry**The Rajput Regt.**To be Nb. Sub.*

Hav. Shiv Narain No. 2945402 now JC-50706, 24th Sep. 1968.

Hav. Tej Singh No. 2938385 now JC-50707, 23rd Oct. 1968.

Hav. Bhojraj Singh No. 2942726 now JC-50708, 23rd Oct. 1968.

Hav. Jagdeo Singh Khatana No. 2937551 now JC-50709, 23rd Oct. 1968.

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Narpal Singh No. 2914748 now JC-50717, 21st Sep. 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 12th Sep. 1968 without effect on pay and allowances.)

*Infantry**The Punjab Regt.**To be Nb. Sub.*

Hav. Khazan Singh No. 2437152 now JC-50755, 20th Aug. 1968.

Hav. Amar Singh No. 2439407 now JC-50874, 9th Oct. 1968.

*Infantry**The Sikh Regt.**To be Nb. Sub.*

Hav. Shamsher Singh No. 3337349 now JC-50760, 24th Aug. 1968.

Hav. Harbhajan Singh No. 3338829 now JC-50761, 4th Sep. 1968.

Hav. Malkiat Singh No. 3339679 now JC-50762, 13th Oct. 1968.

Hav. Dhian Singh No. 3331420 now JC-50750, 12th Oct. 1968.

Hav. Piara Singh No. 2435154 now JC-50751, 12th Oct. 1968.

Hav. Hardial Singh No. 3336494 now JC-50752, 12th Oct. 1968.

*Infantry**4 GR**To be Nb. Sub.*

Hav. Rajindar Singh Gharti No. 5333084 now JC-50744, 14th Oct. 1968.

*Infantry**11 GR**To be Nb. Sub.*

Hav. Minbahadur Limbu No. 9402388 now JC-50745, 1st Oct. 1968.

Hav. Purnabahadur Rai No. 9403001 now JC-50756, 11th Oct. 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 14th Aug. 1968 without effect on pay and allowances.)

Hav. Rudraorasad Limbu No. 9402861 now JC-50757, 16th Aug. 1968.

Hav. Dalbahadur Rai No. 9402769 now JC-50872, 19th Oct. 1968.

Hav. Kumar Rai No. 9403361 now JC-50873, 26th Oct. 1968.

Hav. Kubirdhoj Rai No. 9403090 now JC-50870, 31st Oct. 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 21st Oct. 1968 without effect on pay and allowances.)

*Infantry**The Garhwal Rifles**To be Nb. Sub.*

Hav. Maya Ram Uniyal No. 4034805 now JC-50763, 7th July 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 17th Apr. 1968 without effect on pay and allowances.)

Hav. Umed Singh Rawat No. 4036012 now JC-50764, 27th Aug. 1968.**

**(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 22nd May 1968 without effect on pay and allowances.)

Hav. Khushal Singh Rawat No. 4036065 now JC-50765, 24th Oct. 1968.***

*** (Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. Apr. 1968 without effect on pay and allowances.)

*Infantry**JAK Rif.**To be Nb. Sub.*

Hav. Sansar Singh No. 13711558 now JC-50878, 20th Aug. 1968.

Hav. Romal Singh No. 13717113 now JC-50879, 5th Sep. 1968.

Hav. Moola Singh No. 13717306 now JC-50880, 14th Oct. 1968.

Hav. Rattan Singh No. 13712202 now JC-50697, 8th Sep. 1968.

Infantry

The Raj Rif.

To be Nb. Sub.

Hav. Ram Singh Ram No. 2841563 now JC-50723, 29th July, 1968.

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Ram Singh No. 2635487 now JC-50702, 7th Nov. 1968.

Armoured Corps

To be Nb. Ris. (SKT)

Dfr./SKT Hoshier Singh No. 1010215 now JC-50746, 1st Oct. 1968.

To be Nb. Ris.

Dfr. Phul Deo Kujur No. 1019706 now JC-50881, 18th Oct. 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Ris. w.e.f. 7th June 1968 without effect on pay and allowances).

Dfr. Nathu Singh No. 1016822 now JC-50882, 28th June 1968.

Dfr. Bir Bal No. 1008030 now JC-50884, 1st July 1968.

Dfr. Piyare Lal No. 1010915 now JC-50885, 7th Aug. 1968.

Dfr. Mohar Singh No. 1008026 now JC-50883, 1st Oct. 1968.%

%(Granted seniority in the rank of Nb. Ris. w.e.f. 1st July 1968 without effect on pay and allowances).

Dfr. Sohan Singh No. 1017586 now JC-50886, 9th Sep. 1968.@

@(Granted seniority in the rank of Nb. Ris. w.e.f. 21st Aug. 1968 without effect on pay and allowances).

To be Nb. Ris. (Clerk)

Dfr. Clk. Hardarshan Singh No. 1018312 now JC-50875, 2nd Nov. 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Ris. w.e.f. 7th Oct. 1968 without effect on pay and allowances).

(Army Medical Corps.)

To be Naib Subedar Clerk (GD)

Hav./Clk.(GD) Chandra Dhar Bhatt No. 6792567 now JC-50650, 28th Sep. 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 26th Aug. 1968 without effect on pay and allowances).

Hav./Clk.(GD) Ram Saran No. 6792979 now JC-50651, 27th Aug. 1968.

Hav./Clk.(GD) Kanshi Ram No. 6792756 now JC-50652, 2nd Sep. 1968.

Hav./Clk. (GD) Swarn Singh No. 6792755 now JC-50653, 11th Sep. 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 2nd Sep. 1968 without effect on pay and allowances).

Hav./Clk.(GD) Parkash Lal No. 6792738 now JC-50654, 3rd Sep. 1968.

Hav./Clk.(GD) Baldev Singh No. 6792739 now JC-50655, 3rd Sep. 1968.

Hav./Clk.(GD) Hira Singh No. 6732085 now JC-50656, 28th Sep. 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 3rd Sep. 1968 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar Store Keeper Technical

Hav./SKT Ganga Prasad Joshi No. 6762578 now JC-50657, 2nd Sep. 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 30th Mar. 1968 without effect on pay and allowances).

Hav./SKT Ram Chander No. 6768059 now JC-50658, 10th Aug. 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 1st July 1968 without effect on pay and allowances).

Hav./SKT Munshi Ram No. 6768085 now JC-50659, 18th Sep. 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 24th July 1968 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar Blood Transfusion Assistant

Hav./BTA Madan Lal Khera No. 6759382 now JC-50660, 28th Aug. 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 9th Aug. 1968 without effect on pay and allowances).

Hav./BTA Krishan Dev No. 6759719 now JC-50661, 9th Sep. 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 28th Aug. 1968 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar Lab. Assistant

Hav./LA S. Jhanjait Singh No. 6759441 now JC-50662, 20th Aug. 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 23rd June 1968 without effect on pay and allowances).

Hav./LA Ramesh Chander No. 6759615 now JC-50663, 19th Aug. 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 29th June 1968 without effect on pay and allowances).

Hav./LA Anant Ram No. 6759624 now JC-50664, 8th Aug. 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 29th July 1968 without effect on pay and allowances).

Hav./LA Anand Singh No. 6759684 now JC-50665, 31st Aug. 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 30th Aug. 1968 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar Operating Room Assistant

Hav./ORA Harbansh Lal No. 6769787 now JC-50666, 28th July 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 28th June 1968 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar Dental Technician

Hav./DT Ram Nath Sharma No. 6781594 now JC-50667, 4th June 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 25th Apr. 1968 without effect on pay and allowances).

Hav./DT Ram Kishan Sharma No. 6759852 now JC-50668, 26th July 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 25th July 1968 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar Physiotherapy Assistant

Hav./PA Viswa Mitraya No. 6780086 now JC-50669, 17th May 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 25th Apr. 1968 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar X-Ray Assistant

Hav./X-Ray Asst. E. Ram Kishen Rao No. 6782436 now JC-50670, 17th Aug. 1968.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 6th July 1968 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Major Ambulance Assistant

Subedar Amb. Asst. Sampooran Singh JC-55441, 4th Oct. 1968.

Subedar Amb. Asst. Jangi Singh JC-56898, 4th Oct. 1968.

Subedar Amb. Asst. Lal Channa JC-57244, 4th Oct. 1968.

Subedar Amb. Asst. Hans Ram JC-3151, 4th Oct. 1968.

Subedar Amb. Asst. Banta Ram JC-3149, 4th Oct. 1968.

*Army Ordnance Corps**To be Nb. Subdr. Amn. Technician*

Hav. N. P. Madhavan No. 6862332 now JC-50758, 27th May 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 7th May 1968 without effect on pay and allowances).

To be Nb. Subdr. Clerk (GD)

Hav. Prem Prakash No. 6847410 now JC-50759, 1st June 1968.

*The Intelligence Corps**To be Nb. Sub.*

Hav. Rai Singh No. 3830284 now JC-50747, 19th Oct. 1968.

Hav. Gurmej Singh No. 1023695 now JC-50748, 9th Nov. 1968.

*Corps of Engineers**Bombay Engineer Group**To be Nb. Sub.*

Hav. Dattaram Dalvi No. 1561738 now JC-50767, 13th Jan. 1968.

Hav. Yeshwant More No. 1561335 now JC-50768, 15th Jan. 1968.

Hav. Purushottam Joshi No. 1509257 now JC-50769, 20th Jan. 1968.

Hav. Aular Singh No. 1510540 now JC-50770, 20th Jan. 1968.

Hav. Shyam Sunder Reginald Smith No. 1509475 now JC-50771, 13th Feb. 1968.*

Hav. Naranjan Singh No. 1509121 now JC-50772, 4th Mar. 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 20th Jan. 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Gurlal Singh No. 1561964 now JC-50773, 1st Feb. 1968.

Hav. Shankar Deshpande No. 1562373 now JC-50774, 1st Feb. 1968.

Hav. Venkat Rao Bhosle No. 1561625 now JC-50775, 5th Feb. 1968.

Hav. Sampat Kingle No. 1510675 now JC-50776, 12th Feb. 1968.

Hav. Kaka Singh No. 1508406 now JC-50777, 12th Feb. 1968.

Hav. Rajaram More No. 1561993 now JC-50778, 7th Aug. 1968.@

@(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 25th Mar. 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Sewa Singh No. 1509238 now JC-50779, 24th Apr. 1968.

Hav. Sanjit Singh No. 1508172 now JC-50780, 30th Apr. 1968.£

Hav. Jogindar Singh No. 1508507 now JC-50781, 3rd May 1968.£

Hav. Rajaram Kadani No. 1561404 now JC-50782, 9th May 1968.£

Hav. Krishna Yadav No. 1509330 now JC-50783, 13th May 1968.£

Hav. Vishram Uttakar No. 1561435 now JC-50784, 13th May 1968.£

Hav. Babu No. 1508389 now JC-50785, 8th June 1968.£

Hav. Ishwara Jamdade No. 1508897 now JC-50786, 24th June 1968.£

£(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 24th Apr. 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Tara Singh No. 1561918 now JC-50787, 20th May 1968.

Hav. Sardar Singh No. 1562079 now JC-50788, 20th May 1968.

Hav. Dalbir Singh No. 1508957 now JC-50789, 20th May 1968.

Hav. Kasturi Lal No. 1510922 now JC-50790, 20th May 1968.

Hav. Nawaji Bagal No. 1512058 now JC-50791, 20th May 1968.

Hav. Vasant Rao Mohite No. 1509642 now JC-50792, 20th May 1968.

Hav. Digambarlal No. 2938910 now JC-50793, 12th June 1968.**

**(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 20th May 1968 without effect on pay and allowances).

*Corps of Engineers**MES Mil Cadre**To be Nb. Sub.*

Hav. Bhajan Singh No. 1511145 now JC-50719, 16th July 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. with effect from 15th Mar. 1967 without effect on pay and allowances).

Hav. Mohinder Singh No. 1418785 now JC-50720, 2nd Sep. 1968.**

**(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. with effect from 25th June 1968 without effect on pay and allowances).

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. K. Sukumaran No. 1311357 now JC-50721, 1st Aug. 1968.@

@(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. with effect from 31st Jan. 1968 without effect on pay and allowances).

*(Defence Security Corps)**To be Nb. Sub.*

CHM Basdeo Singh No. 8796367 now JC-50817, 26th July 1968.*

Hav. Bachint Singh No. 8794678 now JC-50818, 28th July 1968.*

Hav. Ratan Singh No. 8794681 now JC-50819, 28th July 1968.*

Hav. M. Sosai Fernando No. 8797614 now JC-50820, 28th July 1968.*

Hav. K. K. Kunhi Kannan Nair No. 8801106 now JC-50821, 28th July 1968.*

Hav. Karam Singh No. 8794270 now JC-50822, 31st July 1968.*

Hav. C. Appanna No. 8806390 now JC-50823, 5th Aug. 1968.*

Hav. Badri Datt No. 8801810 now JC-50824, 7th Aug. 1968.*

Hav. Niwrat Karmalkar No. 8806378 now JC-50825, 9th Aug. 1968.*

Hav. Nilkanth Shete No. 8806179 now JC-50826, 9th Aug. 1968.*

Hav. K. V. Subba Rao No. 8799274 now JC-50827, 10th Aug. 1968.*

Hav. M. V. Velayudhan No. 8799081 now JC-50828, 12th Aug. 1968.*

Hav. Ram Chandar No. 8796084 now JC-50829, 13th Aug. 1968.*

Hav. G. Sahadevan No. 8801307 now JC-50830, 13th Aug. 1968.*

BQMH R. Samy Dorai No. 8803022 now JC-50831, 9th Sep. 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 15th July 1968 without effect on pay and allowances).

Infantry

Brigade of The Guards

To be Nb. Sub.

Hav. Tulsi Ram No. 2430258 now JC-50749, 4th July 1968.

Hav. Mohammad Shah Khan No. 13651781 now JC-50754, 18th Sep. 1968.

Regiment of Artillery

To be Nb. Sub.

BHM A. K. Belliappa No. 1110045 now JC-50794, 17th July 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 1st June 1968 without effect on pay and allowances).

BHM Madanpal Singh No. 1121429 now JC-50795, 2nd June 1968.

RHM Dalip Singh No. 1130594 now JC-50796, 6th June 1968.

Hav. P. K. Samuel No. 1143550 now JC-50797, 11th Sep. 1968.%

%(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 1st July 1968 without effect on pay and allowances).

BQMH Kabal Singh No. 1138910 now JC-50798, 2nd July 1968.

Hav. Sarjit Singh No. 1146286 now JC-50799, 14th Aug. 1968.@

@(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 4th July 1968 without effect on pay and allowances).

BHM Havaladar Singh No. 1204975 now JC-50800, 9th July 1968.

BQMH Beant Singh No. 1134989 now JC-50801, 29th Aug. 1968.£

£(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 22nd July 1968 without effect on pay and allowances).

BQMH Ranbir Singh No. 1128892 now JC-50802, 29th July 1968.

Hav. Daulat Singh Rathor No. 1144136 now JC-50803, 29th July 1968.

BQMH Om Prakash No. 1130038 now JC-50804, 29th July 1968.

Hav. Chander Bhan No. 1140014 now JC-50805, 24th Aug. 1968.&

&(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 29th July 1968 without effect on pay and allowances).

BQMH Sumer Singh No. 1130199 now JC-50806, 31st July 1968.

Hav. Ram Sarup No. 6855407 now JC-50807, 1st Aug. 1968.

RQMH Gokul Singh No. 1120249 now JC-50808, 1st Aug. 1968.

Hav. Suraj Prakash No. 1128401 now JC-50809, 1st Aug. 1968.

BQMH Raghbir Singh No. 1138269 now JC-50810, 31st Aug. 1968.*%

*%(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 1st Aug. 1968 without effect on pay and allowances).

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Bhanwar Singh No. 1135742 now JC-50811, 1st Aug. 1968.

Hav. Clk. Raj Lal No. 3942880 now JC-50812, 15th Aug. 1968.*@

*@(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 7th Aug. 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Clk. Amar Singh No. 1136221 now JC-50813, 26th Sep. 1968.*£

*£(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 1st Sep. 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Clk. Mool Raj Sharma No. 1136339 now JC-50814, 16th Sep. 1968.*&

Hav. Clk. T. K. Narayanan Nambiar No. 1136462 now JC-50815, 21st Sep. 1968.*&

*&(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 7th Sep. 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Clk. P. K. Sridharan Nambiar No. 1136665 now JC-50816, 16th Sep. 1968.*%

%*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 12th Sep. 1968 without effect on pay and allowances).

F. M. VIRJEE, Under Secy.

No. 3275, dated 13th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Army Service Corps

(Mechanical Transport)

To be Nb. Sub.

Hav. Narayan Chandra Ghosh (No. 6574614 now JC-50832), 9th Mar. 1968.

Hav. Raja Singh (No. 6565011 now JC-50833), 17th Apr. 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 16th Mar. 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Dewan Chand (No. 6559112 now JC-50834), 21st Mar. 1968.

Hav. Rajinder Singh (No. 6581891 now JC-50835), 9th Apr. 1968.

Hav. Ranjit Singh (No. 6564853 now JC-50836), 1st May 1968.

Hav. Chandra Deo Dubey (No. 6547316 now JC-50837), 6th May 1968.

Hav. Uma Shankar Singh (No. 6564993 now JC-50838), 11th May 1968.

Hav. Syed Kassim (No. 6547554 now JC-50839), 1st July 1968.%

%(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 16th May 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Jal Singh (No. 6558427 now JC-50840), 20th May 1968.

Hav. Parmeshwar Singh (No. 6558518 now JC-50841), 18th June 1968. £

£ (Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 1st June 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Ram Chander (No. 6556563 now JC-50842) and Hav. Pokh Raj (No. 6576470 now JC-50843), 1st June 1968.

Hav. Jewan Singh (No. 6565238 now JC-50844), 23rd June 1968. @

@ (Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 9th June 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Duni Chand (No. 6558540 now JC-50845), 10th June 1968.

Hav. Kanchan Singh (No. 6565114 now JC-50846), 12th June 1968.

Hav. Kollarikkal Gopalan Nair No. 6564312 now JC-50847, 13th June 1968.

Hav. Govind Ballabh No. 6558555 now JC-50848, 15th June 1968.

Hav. Bawa Lal No. 6577614 now JC-50849, 24th Aug. 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 19th June 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Ishwar Dev No. 6556771 now JC-50850, 20th June 1968.

Hav. Deep Chand No. 6559302 now JC-50851, 14th July 1968.%

% (Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 24th June 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Maha Singh No. 6565331 now JC-50852, 23rd July 1968. £

£ (Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 27th June 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Jiban Chandra Biswas No. 6572502 now JC-50853, 12th July 1968. @

@ (Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 1st July 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Bagavathi Natarajan No. 6564478 now JC-50854, 10th Aug. 1968.**

** (Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 1st July 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Sant Ram No. 6561909 now JC-50855. Hav. Suresh-nand No. 6572605 now JC-50856. Hav. Ram Singh No. 6563460 now JC-50857. Hav. Amrik Singh No. 6572622 now JC-50858. Hav. Bikram Singh No. 6563600 now JC-50859. Hav. Arumugam No. 6549274 now JC-50860. Hav. Umed Singh No. 6556565 now JC-50861 and Hav. Sarwan Das No. 6556566 now JC-50862, 1st July 1968.

Hav. Nagraja Venkata Raman No. 6343483 now JC-50863, 4th July 1968.

Hav. Bimal Chandra Dutta No. 6572680 now JC-50864, 8th July 1968.

Hav. Dalip Chand No. 6556951 now JC-50865, 12th July 1968.

Hav. Dalip Singh No. 6572705 now JC-50866, 14th July 1968.

Hav. Surat Singh No. 6572707 now JC-50867 and Hav. Rattan Singh No. 6556983 now JC-50868, 25th July 1968.

Hav. Raghubir Singh No. 6572711 now JC-50869, 26th July 1968.

C. V. NARAYANAN, Under Secy.

No. 3276, dated 10th Dec. 1968.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army service at his own request for personal reasons and to transfer him to the Regular Reserve of Officers (Class 'X') :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Brig. A. J. D'Souza IC 569, Artillery, 25th Nov. 1968.

No. 3277, dated 10th Dec. 1968.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army service on completion of their tenure as subs. Brig., and to transfer him to the Regular Reserve of Officers (Class 'X') :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Brig. M. B. K. Nair IC 533, Signals, 27th Nov. 1968.

Brig. Prem Singh IC 623, Signals, 27th Nov. 1968.

Brig. S. N. Gairola IC 1492, Signals, 27th Nov. 1968.

No. 3278, dated 10th Dec. 1968.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army service at his own request for personal reasons :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Col. A. Sunder Raj IC 1758, Engineers, 27th Nov. 1968.

G. SEN, Dy. Secy.

No. 3279, dated 7th Dec. 1968.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army service at their own request for personal reasons and to transfer them to the Regular Reserve of Officers (Class 'X') under AI 10/S/63 :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Lt.-Col. N. S. Krishna IC 747, Inf., 1st June 1966.

Lt.-Col. H. R. Roach IC 709, Artillery, 15th Sep. 1966.

Lt.-Col. A. S. Mangat IC 1369, Engineers, 24th Dec. 1966.

Lt.-Col. Krishan Gulati IC 3206, Inf., 27th Feb. 1967.

Lt.-Col. K. K. Chandran IC 2636, Inf., 8th June 1967.

Lt. Col. M. M. Mandhale IC 3828 A.O.C., 1st Aug. 1967.

Lt. Col. D. N. Sadhu IC 2503 E.M.E., 3rd Aug. 1967.

Lt. Col. B. B. Moitra IC 5252 A.S.C., 21st Jan. 1968.

Lt. Col. K. S. Deol IC 2143 Signals, 21st Apr. 1968.

Lt. Col. W. H. Walker IC 2367 Engineers, 25th Apr. 1968.

Maj. Raj Kumar Singh IC 4707 Inf., 18th Nov. 1966.

Maj. E. C. Lilley IC 4693 Inf., 24th Nov. 1966.

Maj. N. K. Tarapore IC 2913 Signals, 16th Feb. 1967.

Maj. D. S. Kirloskar IC 3406 Inf., 2nd Mar. 1967.

Maj. B. S. Bal IC 1064 Armd. Corps, 16th Apr. 1967.

Maj. P. K. Gupta IC 9644 Artillery, 1st May 1967.

Maj. K. P. Singh IC 2691 Inf., (Permanently Seconded to Pioneer Corps), 5th Feb. 1968.

Maj. V. S. Rengaswamy IC 3606 Signals, 25th Aug. 1968.

No. 3280, dated 11th Dec. 1968.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army service on attaining the age of compulsory retirement :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Lt. Col. Hari Singh IC 5695 Inf., 1st July 1967.

Lt. Col. P. K. Noble IC 1099 Inf., 1st July 1967.

Lt. Col. J. B. Dorabji IC 4272, 1st Sep. 1966.

Maj. Satinder Singh Gyani IC 9200 A.S.C., 2nd Sep. 1966.

Lt. Col. T. Sankunni Nair IC 8692 A.S.C., 2nd Sep. 1966.

Maj. Kudur Prayag Raja Rao IC 8923 A.O.C., 5th Sep. 1966.

Maj. P. H. White IC 10266 A.S.C. and Lt. Col. (TS) P. N. Singh IC 2022 A.S.C.—7th Sep. 1966.

Lt. Col. Mahbub Singh IC 3318 A.O.C., 14th Sep. 1966.

Maj. Ratnavelu IC 10925 E.M.E., 22nd Sep. 1966.

Maj. K. R. Bali IC 13489 A.E.C., 26th Sep. 1966.

Lt. Col. Gurmohan Singh IC 571 A.S.C., 12th Oct. 1966.

Lt. Col. A. S. Bakshi IC 1240 A.S.C., 15th Oct. 1966.

Lt. Col. (TS) V. K. Kochhar IC 10389 E.M.E., 20th Oct. 1966.

Maj. Ram Singh Kaushal IC 5234 A.O.C., 28th Oct. 1966.

Maj. Mir Kazim Hussain IC 8319 A.O.C., 29th Oct. 1966.

Maj. S. K. Dhawan IC 5280 A.S.C. and Maj. Gurdial Singh SL 155, 1st Nov. 1966.

Maj. Gora Lal Tiwari IC 8856 Dogra, (Permanent seconded to Pioneer Corps), 7th Nov. 1966.

Maj. Lachhman Singh Parmar IC 11430 A.O.C., 10th Nov. 1966.

Maj. P. B. Nath IC 10829 E.M.E., 15th Nov. 1966.

Lt. Col. Gyan Nath Sapru IC 2862 A.S.C., 16th Nov. 1966.

Maj. K. Prabhakaran SL 10, 19th Nov. 1966.

Maj. Amar Singh Chahal IC 4307 A.O.C., 28th Nov. 1966.

No. 3281, dated 11th Dec. 1968.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army service at their own request for personal reasons:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Lt.-Col. Sobha Chand IC 547 M.F., 29th Aug. 1966.

Lt. Col. M. N. C. Dutta IC-3007 Inf., 17th Sep. 1966.

Lt.-Col. Akhe Ram IC-3281 Inf., 3rd Nov. 1966.

Lt.-Col. L. V. Hermon IC 1937 Artillery, 10th Dec. 1966.

Lt.-Col. T. S. K. K. Handa IC 11338 Inf., 26th Jan. 1967.

Lt.-Col. Hari Singh IC 1861 Inf., 4th Apr. 1967.

Lt.-Col. R. E. Beale IC 10255 A.O.C., 23rd June 1967.

Lt.-Col. M. T. Belliappa IC 1434 Engineers, 22nd Dec. 1967.

Lt.-Col. S. S. Chowdhary IC 486 Signals, 15th Mar. 1968.

Lt.-Col. D. S. Sodhi IC 3499 Inf., 19th Mar. 1968.

Lt. Col. Kailash Nath Rampal IC 6076 E.M.E., 7th Apr. 1968.

Lt.-Col. K. R. Venkataraman IC 3562 A.S.C., 7th Apr. 1968.

Maj. R. C. S. Chahar IC 9368 A.S.C., 10th July 1966.

Maj. Amar Nath Kohli IC 3369 Artillery, 1st Aug. 1966.

Maj. Trilok Singh IC 8912 Artillery, 31st Aug. 1966.

Maj. K. A. Murray IC 1198 Artillery, 10th Oct. 1966.

F. M. VIRJEE, Under Secy.

No. 3282, dated 7th Dec. 1968.—The President is pleased to permit the under-mentioned officers to retire from Army service on attaining the age of compulsory retirement:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Date of Retirement

Major SWAMY Bangalore Narayana (V 90) RVC, 21st Nov. 1966.

Lt. Col. MEHAR CHAND (V 108) RVC, 2nd Aug. 1967.

Capt. RAJU Rajaram Rangaswamy (V 97) RVC, 5th Sep. 1967.

Major KATKAR Thirumalrao Narayanarao (IC 7992) RVC, 1st July 1968.

C. V. NARAYANAN, Under Secy.

No. 3283, dated 11th Nov. 1968.—The President is pleased to release the undermentioned officers from Army Service in terms of AI-9/S/62 [para 15(a)(iii)], w.e.f., 1st Aug. 1968:—

REGULAR ARMY

Emergency Commission

Lt. Rajendra Prakash (EC-54108), Infantry.

Lt. G. G. Sharma (EC-54111), Infantry.

Lt. G. L. Sharma (EC-54242), Infantry.

Lt. K. K. Kohli (EC-54248), Infantry.

Lt. Raspal Singh (EC-54249), Infantry.

Lt. R. S. Chaudhari (EC-54282), Infantry.

Lt. P. K. Velayudhan (EC-54292), Infantry.

Lt. D. N. Rathore (EC-54299), Infantry.

Lt. P. C. Gupta (EC-54316), Infantry.

Lt. Prabhu Narain Singh (EC-54342), Infantry.

Lt. J. S. Sekhon (EC-54347), Infantry.

Lt. K. S. Sharma (EC-54351), Infantry.

Lt. M. S. Gurung (EC-54363), Infantry.

Lt. Narinder Pal Singh (EC-54372), Infantry.

Lt. D. D. Bhatt (EC-54379), Infantry.

Lt. N. R. Mishra (EC-54395), Infantry.

Lt. D. S. Manhas (EC-54441), Infantry.

Lt. S. S. Sirohi (EC-54442), Infantry.

Lt. M. M. Bakshi (EC-54447), Infantry.

Lt. Krishna (EC-54479), Infantry.

Lt. J. S. Chopra (EC-54516), Infantry.

Lt. Lakhwinder Singh (EC-54540), Infantry.

Lt. P. K. Ghosh (EC-54545), Infantry.

Lt. Charan Singh (EC-54551), Infantry.

Lt. V. M. Chopra (EC-54555), Infantry.

Lt. Jag Pal Singh (EC-54556), Infantry.

Lt. S. K. Kapoor (EC-54561), Infantry.

Lt. S. C. Ghosh (EC-54562), Infantry.

Lt. A. Pradeep Singh (EC-54575), Infantry.

Lt. Om Parkash Singh (EC-54596), Infantry.

Lt. K. S. Chohan (EC-54605), Infantry.

Lt. T. R. Trikha (EC-54624), Infantry.

Lt. R. N. Sharma (EC-54627), Infantry.

Lt. R. S. Khubar (EC-54636), Infantry.

Lt. H. Bahl (EC-54639), Infantry.

Lt. R. N. Arora (EC-54641), Infantry.

Lt. Chaman Lal (EC-54657), Infantry.

Lt. J. S. Bakhshi (EC-54659), Infantry.

Lt. Baljit Singh (EC-54673), Infantry.

Lt. S. B. Shetty (EC-54677), Infantry.

Lt. G. L. Sharma (EC-54710), Infantry.

Lt. S. K. Pandey (EC-54711), Infantry.

Lt. P. C. Parlija (EC-54716), Infantry.

Lt. Sukhjinder Singh (EC-54723), Infantry.

Lt. S. K. Sem (EC-54746), Infantry.
 Lt. B. B. L. Agrawal (EC-54767), Infantry.
 Lt. S. Rewal (EC-54780), Infantry.
 Lt. T. S. Saluja (EC-54782), Infantry.
 Lt. R. S. Notyal (EC-54790), Infantry.
 Lt. R. L. Gupta (EC-54793), Infantry.
 Lt. Balbir Singh (EC-54816), Infantry.
 Lt. V. S. Chawan (EC-54819), Infantry.
 Lt. V. S. D. Katial (EC-54212), Infantry.
 Lt. J. K. SAHNI (EC-54269), Armoured Corps.

No. 3284, dated 29th Nov. 1968.—The President is pleased to permit the undermentioned Nursing Officers to relinquish their commission on marriage grounds:—

REGULAR ARMY

Military Nursing Service

Capt. (Miss) V. MADHAVI AMMA NS-12352, 23rd Nov. 1967.

Capt. (Miss) A. C. THOMAS NS-12277, 31st Aug. 1968.

No. 3285, dated 29th Nov. 1968.—The undermentioned officer has been sentenced by a General Court Martial as follows:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Maj. P. Doraiswamy (MR-1519) AMC, to take rank and precedence as if his appointment as sub. Maj. bore date 20th Feb. 1956. This will take effect from 20th June 1968.

F. M. VIRJEE, Under Secy.

No. 3286, dated 16th Dec. 1968.—The undermentioned perm. EME Officer (Civ.) on reaching the age of superannuation retired from service w.e.f. the date indicated against his name:—

Corps of EME

Shri ATAR CHAND SETHI, 21st Oct. 1968 (AN).

No. 3287, dated 16th Dec. 1968.—The undermentioned permanent Head Clerk Gde. II Officiating EME Officer (Civilian) died on the date shown against his name:—

Corps of EME

Shri M. MUTHURATNAM, 15th Nov. 1968.

No. 3288, dated 13th Dec. 1968.—On attaining the age of superannuation the undermentioned officer retired from service w.e.f. the date indicated against his name:—

Military Engineer Services

Shri F. C. GUPTA, Supvr. B/S Gde. 1 Pt. and B.S.O. Ty., 21st June 1966 (A.N.).

Shri B. N. SANYAL, Permt. E.E. and Ty. SE/Prof., 7th Oct. 1968. (A.N.).

KASTURI LAL, Under Secy.

No. 3289, dated 13th Dec. 1968.—Suspension order of the undermentioned officer has been revoked w.e.f. the date indicated against his name:—

Military Engineer Services

Shri L. S. BADAMI, Permt. E.E., 22nd Feb. 1968 (F.N.).

R. S. CHAUDHRI, Under Secy.

CORRIGENDA

No. 3290, dated 11th Dec. 1968.—(i) In Min. of Def. Notn. No. 2803 dated 10th Oct. 1968 published in the Gazette of India, dated 2nd Nov. 1968, under the heading "REGULAR ARMY" Sub. Heading "Majs. to be subs. Lt. Cols. (by selection)" for "M. A. Meriman (IC 5027), Arty., 22nd Aug. 1967" read "M. A. Meriman (IC 5027), Arty., 22nd Aug. 1967".

(ii) In M. of D. Notn. No. 2469 dated 28th Oct. 1963 published in the Gazette dated 9th Nov. 1963, against Major ABHE RAM (IC 9462), Inf., add at the end "but for purpose of pay only 5th Jan. 1942".

(iii) In the M. of D. Notn. No. 724 dated 1st Mar. 1966 published in the Gazette of INDIA dated 19th Mar. 1966 under the heading "REGULAR ARMY" and sub-headings "Emergency Commission" and "To be 2/Lts. under AI 9/S/62" for "Vijay Bhushan KHATRI (EC 59592) Artillery" read "VIJAY BHUSHAN (EC 59592) Artillery".

(iv) In M. of D. Notn. No. 3338 dated 15th Dec. 1966 published in the Gazette of India on 31st Dec. 1966 under the heading, "REGULAR ARMY" sub-heading "SHORT SERVICE COMMISSION" and "Lt. to be Capt. (on probn.)" against the name of K. P. SINGH, (MS-7296) (9301), A.M.C., for "17th Jan. 1966" read "31st Dec. 1965".

(v) In Min. of Def. Notn. No. 732, dated 23rd Mar. 1968, published in the Gazette of India, dated 6th Apr. 1968, under heading "REGULAR ARMY" Sub-heading "Permanent Commission" for "1st Nov. 1967" read "16th Jan. 1968" wherever appearing.

(vi) In M. of D. Notn. No. 2724 dated 20th Sep. 1968 published in the Gazette dated 26th Oct. 1968 in so far as it relates to Lt. Surindra Lal (IC 17132), Engineers, is hereby cancelled.

(vii) In M. of D. Notn. No. 2335 dated 7th Aug. 1968 published in the Gazette dated 21st Sep. 1968 in so far as it relates to Lt. R. P. Mishra (IC 17130), E.M.E., is hereby cancelled.

(viii) In M. of D. Notn. 1656 dated 20th June 1968 published in the Gazette of India dated 6th July 1968 under heading "REGULAR ARMY" Sub-heading "Infantry" and "The Sikh LI" below "To be Nb. Sub." for "Hav. Shankar Singh (No. 4435191 now JC-4836)" read "Hav. Shankar Singh (No. 4435191 now JC-48936)".

F. M. VIRJEE, Under Secy.

No. 3291, dated 17th Dec. 1968.—In Min. of Def. Notn. No. 3010 dated 20th Oct. 1967 published in the Gazette of India dated 4th Nov. 1967 under heading "REGULAR ARMY" sub-heading "Permanent Commission" against Lt. Col. ROSHAN LAL BHATIA (V 30) RVC, for "21st Feb. 1963" read "21st Feb. 1965".

C. V. NARAYANAN, Under Secy.

(NAVY BRANCH)

NAVAL HEADQUARTERS

No. 3292, dated 12th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following appointments:—

(a) Shri R. S. Sud, permt. Supdt. to be offg. Civilian Staff Officer from 28th May, 1968 to 27th July, 1968 vice Shri B. R. Sur, granted leave;

(b) Shri S. S. Sohi, permt. Asstt. to be offg. Supdt. from 28th May, 1968 to 27th July, 1968 vice Shri R. S. Sud, promoted.

NAVAL HEADQUARTERS

No. 3293, dated 12th Dec. 1968.—The President is pleased to appoint Shri B. N. KAUI, permt. Asstt. as Supdt. in an officiating capacity from 1st Apr., 1968 to 10th May, 1968 vice Shri P. D. Puri, granted leave.

R. D. JAIN, Asstt. C.A.O.

No. 3294, dated 10th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following appointments in the Supply & Sec'tl. Branch of the Indian Navy under Regulation 128 of Regs. Navy Part III.

INDIAN NAVY

(Short Service Commission)

Supply & Secretariat Branch

To be Ag. Sub. Lieut. on probn. to-date as indicated against their names

TRILOCHAN MISHRA, GOLAK SAHU, SUSHIL KUMAR RAMSAY, PREM CHAND YADAV, PALLIPARAMBIL JOHN AUGUSTINE and VIJAY KUMAR VAID, 30th Oct. 1967.

MADHUSUDAN SAHU and VENDOTI JOSHUA, 6th Nov. 1967.

S. CHAURASIA, Under Secy.

No. 3295, dated 10th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following appointments :—

With reference to M. of D. Notn. No. 808 dated 24th Feb. 1967 published in the Gazette of India dated 18th Mar. 1967, Sarvashri P. P. Andrade and C. N. N. Swamy to continue to be offg. Asstt. Naval Store Officers on *ad hoc* basis upto 31st Mar. 1969 or till the posts are filled on regular basis, whichever is earlier.

No. 3296, dated 10th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following appointments :—

Shri S. D. SHARMA, tempy. Dy. Armament Supply Offr., Gdc. I to be in charge of current duties of the post of Naval Armament Supply Offr. (O.G.) in addition to his own, vice Shri S. Vittal, granted leave from 5th Feb., 1968 to 7th Mar., 1968.

Shri B. B. GORE, Permt. SHM, temp. Snr. Foreman of Stores to be Offg. Asstt. Naval Store Offr., vice Shri J. F. ROCHA, granted leave from 25th May, 1968 to 3rd Aug. 1968.

Shri F. D'SOUZA, Pmt., UDC, Ty. Supdt., to be Offg. Civ. Gazetted Offr., vice Shri S. Ramachandran granted leave from 18th May 1968 to 2nd Sep. 1968.

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

(AIR BRANCH)

No. 3297, dated 13th Dec. 1968.—The following appointment is made :—

PERSONAL STAFF

The President has been pleased to make the following appointment on his Personal Staff :—

To be Aide-de-Camp

Flt. Lt. N. L. Gupta (6013) GD(P), 24th Oct. 1968 (forenoon).

G. C. AGARWAL, Under Secy.

No. 3298, dated 17th Dec. 1968.—The President is pleased to make the following appointments :—

Permt. Civilian Storekeepers Gdc. I/Tempy. CGOs (Eqpt.) Gdc. III to be officiating CGO (Eqpt.) Gdc. II until further orders :—

Shri K. Ramji and Shri N. K. Raman Menon, 23rd Sept. 1968.

The officers will be on probn. for two years.

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

No. 3299, dated 12th Dec. 1968.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to relinquish their Provisional Short Service Commission w.e.f. the date indicated against their names and to grant them Short Service Commission (on probn.) w.e.f. the same date :—

INDIAN AIR FORCE

Tech./Sigs. Branch

R. J. Prasad (8923), P. C. S. Rautela (9576), V. Khanna (9577), C. G. Kandaswamy (8919), M. K. Gupta (9310), R. K. Suri (8918), M. A. Rehman (8280), Derrick Roberts (8934), K. R. Bali (9582), R. K. Batha (9588), P. Jagannathan (8920), C. B. Chowdhary (8844) and S. B. Majumdar (8917), 4th Oct. 1965.

HOSHNAK SINGH, Under Secy.

No. 3300, dated 16th Dec. 1968.—The President is pleased to promote the undermentioned officer to the acting rank of Gp. Capt. :—

INDIAN AIR FORCE

A. & S.D. Branch

Wg. Cdr. H. L. Kapur (2165), 1st Aug. 1968.

S. R. GURUSWAMY, Dy. Secy.

No. 3301, dated 12th Dec. 1968.—The President is pleased to promote the undermentioned Flt. Lt. to the subs. rank of Sqn. Ldr. :—

INDIAN AIR FORCE

G.D. (P) Branch

A. N. Oberoi (5385), 29th May 1968.

No. 3302, dated 13th Dec. 1968.—The President is pleased to promote the undermentioned Flt. Lts. to the subs. rank of Sqn. Ldr. :—

INDIAN AIR FORCE

G.D. (P) Branch

V. K. Kapoor (5310), M. K. Jain (5327) and P. N. Chhabra (5334), 23rd Mar. 1968.

No. 3303, dated the 9th Dec. 1968.—The President is pleased to promote the undermentioned Fg. Offr. to the subs. rank of Flt. Lt. w.e.f. the date shown against his name :—

AUXILIARY AIR FORCE

Tech./Sigs. Branch

Fg. Offr. Hirday Swaroop KULSHRESTHA (AUX: 30149), 21st May. 1968.

No. 3304, dated 13th Dec. 1968.—The President is pleased to transfer the undermentioned officer from G.D. (N) to A. & S.D. Branch w.e.f. the date indicated against his name in the subs. rank of Sqn. Ldr., but with seniority in that rank w.e.f. 17th July, 1966 *vide* Govt. of India, Min. of Def. letter No. Air HQ/21901/4766/PO2/10454/D(A-III), dated 31st Oct. 1968 :—

INDIAN AIR FORCE

Sqn. Ldr. R. P. Anand (4766), 3rd May. 1968.

No. 3305, dated 13th Dec. 1968.—The President is pleased to release the undermentioned officer on ground of ill health :—

INDIAN AIR FORCE

Met. Branch

Fg. Offr. B. K. Nambiar (6886), 18th June, 1968.

HOSHNAK SINGH, Under Secy.

(NAVY BRANCH)

No. 3306, dated 9th Dec. 1968.—The President is pleased to place the undermentioned officers on the Retired List :—

INDIAN NAVY

(Permanent Commission)

Executive Branch

Capt. (Cdre.) J. S. Mehra, 4th Sep. 1968.

Capt. (Cdre.) J. D. Mody, 31st Mar. 1968.

Capt. (Cdre.) H. R. Claudius, 8th Aug. 1968.

Capt. (Cdre.) L. N. C. Jesudason, 2nd Sep 1968.

Supply & Secretariat Branch

Lt. Cdr. (Ag. Cdr. WHA) V. D. Sachdev, 31st July 1968.

Lt. Cdr. (SD)(S) R. C. F. Patil, 13th July 1968.

AJIT SINGH, Under Secy.

(AIR BRANCH)

No. 3307, dated 9th Dec. 1968.—The President is pleased to transfer the undermentioned Air Officer to the Regular Air Force Reserve on his retirement on completion of tenure in the Regular Air Force :—

INDIAN AIR FORCE

G.D. (P) Branch

Air Vice Marshal S. N. Goyal (1560), from 8th Aug. 1968 to 7th Aug. 1973.

No. 3308, dated 27th Nov. 1968.—The President is pleased to transfer the undermentioned officer to the Regular Air Force Reserve on his voluntary retirement from the Regular Air Force :—

INDIAN AIR FORCE

G.D. (N) Branch

Sqn. Ldr. K. P. Suri (5090), from 1st Apr. 1968 to 31st Mar. 1973.

HOSHNAK SINGH, Under Secy.